

February 9, 2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 **National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051

BSE - 500495

NSE - ESCORTS

Sub: Newspaper Publication for Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company had published the enclosed extract of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022, in the following newspapers dated February 9, 2023:

- 1. Economic Times (English)
- 2. Financial Express (English)
- 3. Rashtriya Sahara (Hindi)
- 4. Mint (English)

The above is for your kind information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Escorts Kubota Limited

Satyendra Chauhan
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

Note: The Equity Shares of the Company were listed on the Delhi Stock Exchange Limited (DSE). However, DSE has been de-recognised and allowed to exit as a stock exchange by SEBI by way of SEBIs Order No. WTM/ SR/ SEBI/ MRD-DSA/ 04/ 01/ 2017 dated 23 January 2017. For avoidance of doubt, the securities of the Company are not listed on DSE owing to DSE having been de-recognised by SEBI.

Escorts Kubota Limited

(Formerly Escorts Limited)

Corporate Secretarial & Law



THE ECONOMIC TIMES | NEW DELHI / GURGAON | THURSDAY | 9 FEBRUARY 2023 | WWW.ECONOMICTIMES.COM

BRIEF PODCAST

Beyond FPO: o- Perception, Politics & the Adani Impact



In our 2nd part, we explore the India contagion & the Middle East equation

Tune in to ETPlay.com. Available on EconomicTimes.com/podcast, Amazon Prime Music, Apple Podcasts, JioSaavn and Spotify.

Reconsider Decision on Role of Company Secy: SC to SAT

12 13 14

Sets aside ruling that exonerated CS of Deccan Chronicle from liability for misstatements by co

Indu.Bhan@timesgroup.com

es Appellate Tribunal's (SAT) to months. reconsider its decision on the responsibilities and liabilities of a company secretary (CS) in terms of various statutory regulations related to buyback of securities. Setting aside the SAT's ruling that exonerated V Shankar, the CS of Deccan Chronicle Holdings

misstatements and incorrect dis-

closures made by the company, a had "errored in interpreting" Re bench led by Chief Justice DY Chandrachud remanded the case

The appellate tribunal on Nofer document and the balance sheet is approved by the board of directors, there is no requirement for the CS to check the veracity of the buyback offer document and its legal compliances before aut-(DCHL), from liability for certain henticating such document.

gulations 19(3) of the Sebi (Buyback of Securities) Regulations New Delhi: The Supreme Court backtothe tribunal and asked it to that provide for various obligaon Wednesday asked the Securiti- decide the issue afresh within six tions to be carried out by the company including nomination of a compliance officer. It said nomivember 1 had held that once the of-nation of a compliance officer is two fold — investors service centre for compliance with the buyback regulations and to redress grievances of investors - and the appellate tribunal needs to decide

in these terms of the regulation. Senior counsel Arvind Datar, ap-The apex court said the tribunal pearing for Sebi, argued that Companies Act, 1956.

ve exercised utmost due diligence

found several irregularities including overstating

and checked the veracity of the buyback offer document that contained incorrect discommitted by closures and its legal compliances before authenticating and signing the public announcement, which vio-

lated various provisions of the

Sundaresan, appearing for the sponsible as the CS for signing the CS, submitted that he could not public announcement made by have been penalised for the board's decision and the directors yback of its equity shares. It fowere solely responsible for these und that Shankar had violated

irregularities in the open offer. DCHL including overstating pro- lakh penalty on him. fits in their annual reports, understating the outstanding loans and interest in the annual reports from 2008 to 2011 and for undertaking a buyback of shares without

having adequate free reserves

which misled the investors. Besi-

the company on May 6, 2011 for busections 68 and 77A of the Compa-Sebi investigations had found senies Act, accordingly, the market veral irregularities committed by regulator in March imposed ₹10

On appeal, SAT overturned the Sebi's order, saying merely because a company secretary falls within the definition of an 'officer in default' under Section 5 of the Companies Act it does not make him automatically liable for a dedes, its promoters and directors, fault under Section 77A.

indian Carriers may motherson Order up to 1,700 Planes in 1-2 Yrs: CAPA

Press Trust of India

-Mumbai: Indian carriers are likely to place orders for 1,500 to 1,700 planes in the next one to two years and Air India is expected to make the first move with a potential order for 500 aircraft, aviation consultancy CAPA said on Wednesday. The total com-⊕mercial Indian fleet of around 700 aircraft is smal-Eler than some of the world's largest individual airli-Tenes, CAPA said, adding that given the immense po-Etential that exists, it stands to reason that there is a Eneed to induct more aircraft.

- In a report, CAPA said the Indian market in the post-Covid era is attracting global attention as argu-Eably the most promising aviation market.

Almost every carrier in India is expected to order Emore aircraft in the next couple of years for fleet replacement as well as growth, given that the order bo-Eok for most incumbent carriers could be considered conservative relative to the growth potential of the market over the next decade and beyond, it said.

In India, air traffic recovery has been amongst the strongest in the world. "Based on CAPA India's proprietary traffic forecasts for the next decade and beyond, combined with our assessment of aircraft reitirement cycles, we expect that Indian carriers will place orders for around 1,500-1,700 aircraft over the next 12-24+ months," it said.

Icra: Domestic Air Passenger

Press Trust of India

N _Mumbai: Domestic air passenger traffic touched ∃1.25 crore in January this year, an increase of 96 eper cent compared to the year-ago period, accor-Eding to rating agency Icra. However, it said the traffic remained around 2 per cent lower compa-Fred to the pre-Covid levels - January 2020. The Etraffic stood at 64 lakh in January last year.

Icra is maintaining a negative outlook on the In-Edian aviation industry, reflecting the view that the Efinancial performance of Indian airlines is likely Eto remain under pressure in the near term, even Ethough the recovery in domestic passenger traffic -has been healthy. While a meaningful improve-Ement in passenger traffic is expected in FY2023, the pace of recovery in the industry earnings will be gradual, it said on Wednesday.

Icra noted that the net loss in FY2023 is expected to be notably lower compared to ₹235 billion ₹23,500 crore) net loss in FY2022, primarily due to recovery in passenger traffic, fare hikes and lower interest burden. In January this year, airlines' capacity deployment was higher by around 42 per cent than January 2022 while it was lower by abo-

SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED

(Formerly Motherson Sumi Systems Limited) CIN - L34300MH1986PLC284510

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: investorrelations@motherson.com, Website: www.motherson.com

8.	Consolidated INR in Co				INR in Crores	į.				Standa	alone		INR in Crores
Thr	ee months er	nded	Nine mon	ths ended	Year ended			Thr	ee months en	ded	Nine mon	ths ended	Year ended
31.12.2022 (Unaudited)		31.12.2021 (Unaudited)		31.12.2021 (Unaudited)			Particulars		30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)		
20,226.21	18,260.78	16,117.51	56,101.70	46,351.25	63,535.99	1	Total income from operations from continuing operations	1,799.88	1,810.74	1,321.38	5,228.85	3,714.14	5,344.75
718.90	557.96	326.93	1,551.16	1,028.49	1,472.22	2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) from continuing operations	366.24	273.32	86.15	784.74	480.20	967.90
=	=	200.25	-	484,59	484.59		Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) from discontinued operations	2	525	200.25	342	484.59	484.59
717.91	459.58	326.93	1,451.79	1,028.00	1,424.17	3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) from continuing operations	366.24	273.32	86.15	784.74	479.71	919.85
-	-	200.25	-	484.59	484.59		Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) from discontinued operations	-	949	200.25	(4)	484.59	484.59
500.73	288.20	377.84	970.48	1,050.88	1,181.57	4	Net Profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items) from continuing and discontinued operations	333.60	213.91	208.33	667.51	766.58	1,163.86
453,93 46.80	246.43 41.77	245.08 132.76	841.58 128.90	751.58 299.30	873.85 307.72	5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) - Owners - Non-controlling interests	333.60	213.91	208.33	667.51	766.58	1,163.86
1,080.80 90.94	(310.88) 41.01	(62.58) 164.11	1,442.39 172.11	501.85 380.97	908.81 492.39	6	Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)} - Owners - Non-controlling interests	352.46	219.38	210.96	726.79	791.88	1,190.06
677.64	451.76	451.76	677.64	451.76	451.76	7	Paid up Equity Share Capital (of INR 1/- each)	677.64	451.76	451.76	677.64	451.76	451.76
21,174.50	20,247.79	19,703.33	21,174.50	19,703.33	20,136.47	8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	30,686.47	30,559.91	30,081.09	30,686.47	30,081.09	30,479.27
26,451.52	26,677.40	26,677.40	26,451.52	26,677.40	26,677.40	9	Securities Premium Account	26,443.50	26,669.38	26,669.38	26,443.50	26,669.38	26,669.30
19,840.88	19,324.92	19,004.29	19,840.88	19,004.29	19,183.38	10	Net worth	30,750.94	30,422.74	29,972.37	30,750.94	29,972.37	30,376.78
14,471.29	14,097.83	14,748.99	14,471.29	14,748.99	14,129.72	11	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	5,666.20	5,520.44	6,556.41	5,666.20	6,556.41	5,416.3
0.66	0.68	0.73	0.66	0.73	0.69	12	Debt Equity Ratio	0.18	0.18	0.21	0.18	0.21	0.1
0.67	0.36	0.20	1.24	0.82	0.97	13	Earnings Per Share (of INR 1/- each) for continuing operations - Basic and Diluted	0.50	0.31	0.12	0.99	0.85	1.5
2	=	0.32	12	0.77	0.70		Earnings Per Share (of INR 1/- each) for discontinued operations - Basic and Diluted	3	34	0.32	140	0.77	0.70
-	·	7		7.	. 3	14	Capital Redemption Reserve		· ·	77.0	275	-	

Note

1.57

15.15

1.20

14.03

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company (www.motherson.com).

1.69

16.16

1.38

13.93

Not Applicable being a Listed entity

1.68

15.33

By Order of the Board of Directors For Samvardhana Motherson International Limited (Formerly Motherson Sumi Systems Limited)

0.25

4.50

0.24

5.18

0.70

5.01

2

-40

-4

-60

-0

-0

Not Applicable being a Listed entity

0.22

3.85

0.32

5.08

Place : Noida

Dated: February 08, 2023

0.19

4.35

V C SEHGAL

Chairman

Debenture redemption reserve

3.17 | 16 | Debt Service Coverage Ratio

14.98 | 17 | Interest Service Coverage Ratio

RO:RO/DEL/0330/22-23 RO.DT:08.02.2023,W:32.90,H:20.00 motherson all

E Kubota

Escorts Kubota Limited (Formerly Escorts Limited)

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortsgroup.com Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, 121 003, Haryana

CIN - L74899HR1944PLC039088

Escorts Kubota Limited

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

ď,	1													₹ In Crores
1	SI.	Particulars			Standalor	ne Results					Consolida	ted Results		
	No.	raticulais		3 Months ended	R	9 Mont	hs ended	Year ended		3 Months ended		9 Month	s ended	Year ended
Ī	1		December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
1			Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	1	Total revenue from operations	2,263.67	1,883.48	1,971.50	6,162.00	5,327.33	7,196.90	2,291.35	1,890.80	1,998.29	6,214.21	5,396.01	7,282.65
	2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	191.46	268.82	630.94	752.40	1,021.88	235.62	182.86	261.62	610.02	735.37	992.83
	3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	118.70	268.82	558.18	752.40	1,021.88	235.62	129.81	261.62	556.97	735.37	992.83
1	4	Net Profit for the Period	186.40	87.66	201.52	421.51	563,44	765.61	180.80	98.80	193.71	420.19	545.63	735.61
	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.45	97.57	196.49	422.47	546.13	737.69
	6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.47	97.60	196.97	422.57	546.05	738.55
K	7	Equity Share Capital	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94
ľ		Other Equity						7,746.24						7,467
ľ	9	Famings Per Share of ₹ 10 each:	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	37405,500,000	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	
		(1) Lesic (₹)	14.37	6.76	15.33	32.52	42.75	58.91	16.70	9.14	19.74	38.85	55.48	74.06
		(2) Dilutes (₹)	14.35	6.75	15.30	32.48	42.67	58.71	16.68	9.12	19,67	38.79	55.35	73,73

Notes:

- The above standalon and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and Directors of meetings held on February 98, 2023.
- The above is an extract of the desiled format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

16

15

13

14

17

19

20

21

18

Place: Faridabad Date: 08/02/2023 For Escorts Kubota Limited Nikhil Nanda (Chairman and Managing Director)

THE ECONOMIC TIMES | MUMBAI | THURSDAY | 9 FEBRUARY 2023 | WWW.ECONOMICTIMES.COM

~ QUESTION OVER CLAIMED SUBSIDY OF AT LEAST ₹ 300 CR

Four EV Cos Under Lens for Subsidy Misuse

Ola, Ather, TVS Motor, Vida allegedly mispricing electric two-wheelers to be eligible for subsidy under FAME scheme

□ Twesh.Mishra@timesgroup.com

New Delhi: The government is loor —oking into allegations that four Ekev electric two-wheeler manu-Efacturers were artificially kee-Ewer to claim subsidy.

Ola, Ather, TVS Motor and Vida Eare under the scanner for allegedly mispricing their electric two-whe-Eelers to make them eligible for sub-Esidy under the scheme Faster Electric Vehicles (FAME), senior ast ₹300 cr subsidy, they added.

The government is separately Eprobing a dozen other electric twowheeler manufacturers for their quired for the subsidy. =alleged failure to meet localisation

commitments under the scheme. The Ministry of Heavy Industri-

es began the latest enquiry follo-

wing a whistle-blower complaint that these four companies falsely claimed subsidy of at least ₹300

crore by billing integral parts such Eping prices of their products lo- as the charger and proprietary software separately from the twowheeler. The government has asked the companies to come clean on these allegations.

Under the FAME programme, subsidies cannot be claimed for electric two-wheelers that have an ex-factory price above ₹1.50 lakh. It government officials. The EV ma- is alleged that these manufactu-Ekers may have falsely claimed at le-rers billed chargers and proprietary software separately to customers in order to price the vehicles below the eligibility threshold re-

Ola denied the allegations and sa- to 12 electric two-wheeler makers.

Bumpy Ride

Govt initiates fresh probe against FAME beneficiaries


EV makers accused Charger and

Key Allegations

of mispricing software billed vehicles

Cos claim no wrongdoing Say not Additional

everyone software is for needs a enhanced user



The Centre offers financial support for 1 million units of electric two-wheelers under the ₹10,000 crore FAME scheme.

MOVE AIMED AT KEEPING

LAKH FAME THRESHOLD

PRICE BELOW RS 1.5

Companies can offer a discount of withheld ₹1,100 crore of subsidy due up to 40% on the cost of locally manufactured vehicles and claim it as

a subsidy from the government, This allows firms to make EVs affordable and boost sales. According to the gazette notification for the current round of the scheme, ₹2,000 crore has been earmarked for financial support to electric two-wheeler makers.

EV makers claim that sometimes customers purchase multiple vehicles and don't need a separate charger for each unit. They maintain that some of the software sold as an add-on is to enhance the user experience and was not an essential component of the vehicle.

The ministry has mandated the Automotive Research Association of India to conduct the probe.

Industry association Society of Manufacturers of Electric Vehicles said there was a need to draw a line between genuine and mala fide cases.

Govt Homes in on ₹25,000 cr **Projects for Green Financing**

Banikinkar.P @timesgroup.com

New Delhi: The government has identified projects worth ₹25,000 crore that will be financed by proceeds from sovereign green bonds issued in the current fiscal and the next as part of its green-funding push, officials said. The projects already identified for green financing are largely in renewable energy and clean transportation segments, one of them said.

"This money is being raised for a very specific purpose, so it will be utilised strictly in stipulated green projects," he said, adding that more green projects are expected to be identified for funding later.

A green finance working panel, headed by chief economic adviser V Anantha Nageswaran, has been mandated to select projects from the proposals submitted by varioas government departments. The government had announ-

ced plans to raise ₹16,000 crore through green bonds in two equal tranches in the current fiscal, and the first tranche - the country's first issuance of sovereign green bonds—in January drew a robust response, with orders exceeding the offer size of ₹8,000 crore by more than four times.

It earned the bonds 5-6 basis points in "greenium", which essentially means a favourable

yield spread compared to similar issues without green credentials Next fiscal's green bond issues

are likely only in the second half of

the year, after closely watching ut-

ilisation of the funds raised this

year, officials cited above said. FOR FULL REPORT, GO TO www.economictimes.com



भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी बांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्र. ०५

निविदा सुचना क्र. १९३ सन २०२२-२३ प्रसिद्ध करणे बाबत.

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील खालील काम वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करणे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	अंदाजपत्रकीय किंमत
१	प्रभाग क्र. ६ क मधील हमालवाडा, तांडेल मोहल्ला मुरलीधर मंदिर परिसरात विविध ठिकाणी गटार पाथवेज व लादीकरण करणे.	९,९९,५०३/-
2	प्रभाग क्र. ६ क मधील सौदागर मोहल्ला मुकरीशहा परिसरात विविध ठिकाणी गटार पाथवेज व लादीकरण करणे.	९,९९,३८२/-
3	प्रभाग क्र. ५ क मधील अन्सारी रोड, जव्वाद हॉटेल मागे व पुढे गोल बिल्डिंग बौद्धवाडा ग्रीनपार्क येथे गटार पाथवेज व लादीकरण करणे.	१४,९३,९८०/-
٧	प्रभाग क्र. ५ ड मधील मदनी मस्जिद परिसरात लादीकरण करणे.	९,९६,३३५/-
ч	प्रभाग क्र. ८ क मधील रामेश्वर मंदिर जवळ गटर आणि लादीकरण करणे	९,९९,७६२/-
Ę	प्रभाग क्र. ८ ब मधील मधील जैतूनपुरा परिसरात विविध ठिकाणी पाथवेज पायवाट करणे.	९,९९,६३२/-
9	प्रभाग क्र. ६ ब भिमेश्वर मंदिर मागील परिसरात ब्राम्हण आळी गटर व पाथवेज करणे.	९,९४,७४९/-
۷	प्रभाग क्र. ६ ब मार्कंडेश्वर मंदिर समोरील परिसरात ठाणगे आळी गटर व पाथवेज करणे.	९,९८,७0५/-

सबब कामाची ई-निविदा महानगरपालिकेच्या mahatenders.gov.in संकेतस्थळावर दि. 0९/0२/२०२३ ते दि. २३/०२/२०२३ रोजी पर्यंत उपलब्ध आहेत.

ऑनलाईन निविदा संकेतस्थळावर दि. २३/०२/२०२३ रोजी दुपारी ४.०० वाजे पर्यंत स्विकारण्यांत येतील.

RO:RO/DEL/0330/22-23 RO.DT:08.02.2023,W:32.90,H:20.00

CENTUM ELECTRONICS LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L85110KA1993PLC013869

Regd. Office: No. 44, KHB Industrial Area, Yelahanka New Town, Bengaluru - 560 106 Phone: +91-80-41436000 Fax: +91-80-41436005 Email: investors@centumelectronics.com

Website: www.centumelectronics.com Extract of the Unaudited Consolidated Financial Results for the Third Quarter and Nine months ended 31st December, 2022

(Rs in Millions)

27

-8

2=

2

- 60

-40

-4

-60

-0

-0

SI.	2 8 6	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	Year ended
lo.	Particulars	31-12-2022 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-12-2021 (Unaudited)	31-03-2022 (Audited)
8	Total Income from Operations	1,995.40	6,123.19	2,026.07	7,879.64
00000	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(101.98)	(216.71)	41.49	81.52
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(101.98)	(216.71)	41.49	(522.02)
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(96.68)	(190.99)	35.16	(534.65)
0.000	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(129.73)	(187.86)	41.81	(510.43)
	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	(4) (6)	- DA - DO		128.85
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				1,910.83
	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinuing operations) (a) Basic : (b) Diluted :	(5.92) (5.92)	(12.19) (12.19)	2.72 2.72	(23.70) (23.70)

1. Brief of unaudited Standalone Financial Results for the Third Quarter and Nine months ended 31" December, 2022 is as follows: (Rs in Millions)

Quarter ended Nine months ended Quarter ended Year ended **Particulars** 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2021 31-03-2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 3,538.17 Net Sales/ Income from Operations 1,040.02 3,089.85 860.81 Profit Before Tax (10.53)(43.86)45.15 153.76 Profit After Tax (9.36)(34.23)32.04 117.66

2. The unaudited Standalone and Consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee in their Meeting held on 6th February, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their Meeting held on 7th February, 2023.

3. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the quarter ended Standalone and Consolidated Financial results are available on the websites of the stock exchanges www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.centumelectronics.com.

> For CENTUM ELECTRONICS LIMITED Sd/-

> > ₹ In Crore.

Apparao V Mallavarapu Chairman & Managing Director

E Kubota

Place : Bengaluru

Date: February 07, 2023

Escorts Kubota Limited

Escorts Kubota Limited (Formerly Escorts Limited) Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortsgroup.com

Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, 121 003, Haryana

CIN - L74899HR1944PLC039088

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

S	1.	Particulars			Standalor	e Results	esults			Consolidated Results						
	lo.	Particulars		3 Months ended		9 Monti	s ended	Year ended		3 Months ended		9 Month	Year ended			
Ī	Ī		December 31, 2022 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	December 31, 2021 Unaudited	December 31, 2022 Unaudited	December 31, 2021 Unaudited	March 31, 2022 Audited	December 31, 2022 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	December 31, 2021 Unaudited	December 31, 2022 Unaudited	December 31, 2021 Unaudited	March 31, 2022 Audited		
3	1	Total revenue from operations	2,263.67	1,883.48	1,971.50	6,162.00	5,327.33	7,196.90	2,291.35	1,890.80	1,998.29	6,214.21	5,396.01	1.0000000000000000000000000000000000000		
2.4	2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	191.46	268.82	630.94	752.40	1,021.88	235.62	182.86	261.62	610.02	735.37	992.83		
***	3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	118.70	268.82	558.18	752.40	1,021.88	235.62	129.81	261.62	556.97	735.37	992.83		
4	4	Net Profit for the Period	186.40	87.66	201.52	421.51	563.44	765.61	180.80	98.80	193.71	420.19	545.63	735.61		
75	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.45	97.57	196.49	422.47	546.13	737.69		
ŧ	6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.47	97.60	196.97	422.57	546.05	738.55		
1	7	Equity Share Capital	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94	131,94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94		
1		Other Equity						7,746.24						7,467		
4	9	Earnings Per Share of ₹ 10 each:	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised		not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised			
		(1) Lesic (₹)	14.37	6.76	15.33	32.52	42.75	58.91	16.70	9,14	19.74	38.85	55.48	74.06		
		(2) Dilutes (₹)	14.35	6.75	15.30	32.48	42.67	58.71	16.68	9.12	19.67	38.79	55.35	73,73		

Notes:

- The above standalon and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and approved by the Board of Directors of the Committee and Directors of the Co meetings held on Februar, 98, 2023.
- The above is an extract of the desiled format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

16

17

15

13

14

19

20

21

18

Place: Faridabad Date: 08/02/2023 For Escorts Kubota Limited Nikhil Nanda (Chairman and Managing Director)

<u>Public Nouce För E-Auguon For Sälefur Immóvable Properties </u> Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at:- 316 - Purnima Plaza, Second floor, GMS - Road, Dehradun -248001. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website; www.bankeauctions.com.

- 1	Porrowor(s) /		Description of the Immovable property /		
	Borrower(s) / Co-Borrower(s) /	Demand Notice Date and	Secured Asset	Date of Symbolic Possession	Reserve Price
ı	Guarantor(s)	Amount	All that part and parcel Schedule - A: All that		
ı	1. M/S Ananya	45.14 0000	property bearing municipal no. 11 (11-A, New		Rs. 9,78,85,000/-
ı	Enterprises	15-Mar-2022 Rs.10,67,48,331/-	No. 83), Kalidas Road, Dehradun measuring 579.21 Sq. Mts., Schedule - B : All that prop-		(Rupees Nine Crore Seventy Eight
ı	2. Mr. Mahesh	(Rupees Ten	erty bearing municipal no. 11 (11-A, New No.	Outstanding As	Lakh Eighty Five Thousand Only)
ı	Chander Babbar	Crore Sixty Seven	83), Kalidas Road, Dehradun measuring 854		Earnest Money Deposit (EMD)
ı	3. Mr. Shyam	Lakh Forty Eight	Sq. Mts., Schedule - D : All that property		Rs. 97,88,500 /- (Rupees Ninety
ı	Sunder Babbar	Thousand Three	bearing municipal no. 11 (11-A, New No. 81),		Seven Lakh Eighty Eight Thousand Five Hundred Only)
ı		Hundred Thirty	Kalidas Road, Dehradun measuring 850 Sq.	(Rupees Ten	Thousand Five Hundred Only)
ı	4. Mrs. Vibhuti	One Only)	Mts. having covered area of 26 Sq. Mts.	Crore Fifty Two	Reserve Price
ı	Babbar	Offic Offity)	Schedule - E : All that property bearing municipal no. 11 (11-A, New No. 81), Kalidas		Rs. 2,76,09,000/- (Rupees Two
ı	(Prospect No.	Bid Increase	Road, Dehradun measuring 150 Sq. Mts	Nine Thousand	Crore Seventy Six Lakh Nine Thousand Only)
ı	765354, 936103,	Amount	Schedule -C : All that property bearing no. 11	Three Hundred	Earnest Money Deposit (EMD)
I	955062 and	Rs.10,00,000/-	(11-A), Kalidas Road, Dehradun measuring		Rs. 27,60,900 /- (Rupees Twenty

Mode of Payment:- All payment shall be made by demand draft in favour of "IIFL Home Finance Limited" payable at Gurugram or throughRTGS/NEF the Accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard CharteredBank, c) Account No 9902879 followed by Loan Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001 e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001

15-Mar-2023 till 5 pm.

607. 56 Sq. Mts. out of which covered area is

29. 64 Sq. Mts.

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

FERROUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

Registrar of Companies-

Delhi & Haryana (RoC-Delhi)

U45201DL2006PTC145748

order pronounced on 02.02.2023)

Narender Kumar Sharma

Plot No.- 112A, Phase-V, Udyog Vihar,

E-mail: nksharma.fcs@gmail.com

Plot No.- 112A, Phase-V, Udyog Vihar,

E-mail: cirp.ferrousinfra@gmail.com

21-02-2023 (14 days from CIRP Commencement)

Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-02771/2022-2023/14251

Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N01046/2021-2022/13625

Narender Kumar Sharma

AFA Valid upto: 07.12.2023

Gurugram, Haryana-122016

Gurugram, Haryana-122016

Name of Corporate Debtor

incorporated / registered

Authority under which Corporate Debtor is

Corporate Identity No. / Limited Liability

Identification No. of Corporate Debtor

Address of the registered office and

Insolvency commencement date in

Estimated date of closure of insolvency

Name and Registration number of the

insolvency professional acting as Interim

Address & email of the interim resolution

professional, as registered with the board

sub-section (6A) of section 21, ascertained by

Names of insolvency professionals identified 1, Sunit Sethi

Address and e-mail to be used for

correspondence with the Interim

Last date for submission of claims

the Interim Resolution Professional

in a class (three names for each class)

(b) Details of authorized representatives.

4. (a) Relevant forms available at

are available at:

Date: 08.02.2023

Place: Gurugram, Haryana

Resolution Professional

respect of Corporate Debtor

resolution process

Resolution Professional

Date of incorporation of Corporate Debtor 02-02-2006

principal office (if any) of Corporate Debtor | New Delhi-110014

Classes of creditors, if any, under clause (b) of Home Buyers (Real Estate Allottees)

to act as authorised representative of creditors | Regn. No.: IBBI/IPA-003/ICAIN00426/2022-2023/14179

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a

corporate insolvency resolution process of the Ferrous Infrastructure Private Limited on 02-02-2023

The creditors of Ferrous Infrastructure Private Limited, are hereby called upon to submit their claim: with proof on or before 21-02-2023 to the interim resolution professional at the address mentioned agains

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12 above, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13

above to act as authorised representative of the Financial Creditors in Class (Real Estate Allottees) in

Interim Resolution Professional for Ferrous Infrastructure Private Limited

Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00125/2017-18/10294

Copy of the order uploaded on NCLT website and received by the IRP on 07-02-2023).

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties as per Law.

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

2. Sanjay Singhal

Rahul Maheshwari

(a) Web Links: https://ferrousinfra.in

https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Udyog Vihar, Gurugram, Haryana-122016

(b) Physical Address: Plot No.- 112A, Phase-V,

(Rupees Ten

Lakh Only)

Date of Inspection of property

13-Mar-2023 1100 hrs -1400 hrs

961940)

. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.

The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit an payment shall be in the prescribed mode of payment.

The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electric ity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- support@bankeauc

tions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and for any guery related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc

call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- auction.hl@iifl.com Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstance. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled ar the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 9. In case of default in payment a any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.

10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final. STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the dat of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Place:-New Delhi , Date: 09-Feb-2023 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited

FERROUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

B-22, Lower Ground Floor, Jangpura Extension,

07-02-2023 (Date of receipt of copy of admission

Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00125/2017-18/10294

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

Seven Lakh Sixty Thousand Nine

Hundred Only)

17-Mar-2023 1100 hrs-1300 hrs.

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

2236, Sector 46, Gurugram Haryana - 122001

E-mail: cirp.mcraygor@gmail.com

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MCRAYGOR MECHANICALS PRIVATE LIMITED

	RELEVAN	IT PARTICULARS
1.	Name of Corporate Debtor	MCRAYGOR MECHANICALS PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of Corporate Debtor	01/05/2001
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Delhi & Haryana
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U29150HR2001PTC034671
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	1402, Sector-6 Bahadurgarh HR -124507 IN (as per the MCA website)
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	08/02/2023
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	06/08/2023 (180 days beginning Insolvency Commencement date)
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Naveen Kumar Jain Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/1109 AFA Valid upto: 05.10.2023
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	2236, Sector 46, Gurugram Haryana - 122001 E-mail: insolvencyprofessional@rediffmail.com (This email is not to be used for sending claims)
_		

(This email is to be used for sending claims) Last date for submission of claims 22/02/2023 Classes of creditors, if any, under clause (b) of Not Applicable as per information available sub-section (6A) of section 21, ascertained by with IRP till date the Interim Resolution Professional

(a) Relevant forms available at (a) To Download the relevant Forms, the weblink is (b) Details of authorized representatives https://ibbi.gov.in/home/downloads are available at: (b) Not Applicable as per information available with Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Chandigarh Bench has ordered the

The creditors of Mcraygor Mechanicals Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 22.02.2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act.

with IRP till date Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Naveen Kumar Jain Interim Resolution Professional for Mcraygor Mechanicals Private Limited Date: 08.02.2023 Rea. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097 Place: New Delhi

PRESS TRUST OF INDIA Bengaluru, February 8

AHIGH-LEVEL delegation from the government of Karnataka on Wednesday met Hon Hai Technology Group (Foxconn) chairman Young Liu at the company headquarters in Taiwan, and held discussions about investment plans in the state.

Gunjan Krishna, Commissioner for Industrial Development and Director of Industries and Commerce, and Kedarnath Mudda, Senior Advisor to Basavaraj Bommai, chief minister of Karnataka. Foxconn's spokesman James Wu, Chief Investment Officer James Tu, and some more executives were also present on the occasion, an official release said.

ment in Karnataka will be a testament to the State's industrial landscape. We are working towards building the best electrn (New Taiwan dollar)

tronics and manufacturing ecosystems, which will attract

world's largest electronics manufacturer, with a total revenue exceeding NTS (New Taiwan dollar) 6 trillion in 2022. As of last year, it ranks 20th in the Fortune Global 500. Foxconn has 173 campuses and offices in 24 countries or regions around the world.

ments for the company include

(smartphones, TVs, game consoles, among others), cloud and networking products (servers, communication networks), computing products (computers, tablets) and components and others (connectors,

industrial policy, our aim is to make Karnataka a key electronics and manufacturing hub. With Foxconn's potential investment, the State is gearing up to be the topmost in the country to attract many other global electronics companies," said Large and Medium Industries Minister Murugesh Nirani.

Gunjan Krishna said the government would like to investment destination.

West sanctions won't hit India-Russia defence ties, says BrahMos chief

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 8

THE INDIA-RUSSIA defence partnership will "never" be disrupted by the Western sanctions on Moscow, BrahMos Aerospace chief said on Wednesday, saying it's the "trust" that makes this partnership work.

The West, led by the US, has imposed crippling sanctions on Russia for its invasion of Ukraine in February 2022. BrahMos Aerospace is a

joint venture between India and Russia that specialises in nuclear-capable supersonic

The company currently manufactures the BrahMos missile and is currently developing the BrahMos II, a hypersonic cruise missile.

The West's attempts will not stop the Russia-India defence partnership, nor will it impact the company's operations, BrahMos Aerospace Indo-Russian Joint Venture Managing Director and CEO Atul Dinkar Rane told TASS, the official news agency of Russia. "My personal gut feeling

- it is never!" Rane said when asked whether Western countries could halt India-Russia defence and security

cooperation. "And if someone tries, he will only fail. The relationship between the Indian scientists and Russian technologists is so

going to be possible to break it. Even if someone tells us by law — no more talking with Russia, you will start talking to someone else — but we'll always say it was easier to work with the Russians," Tass quoted him

deep right now that it's not

as saying. Rane asserted it is the trust between India and Russia that will help this partnership work despite sanctions

"The trust which we have developed between the two partners, ... that trust is good enough for us to work, and we are working forward — despite all these sanctions," Rane said.

from the West.

The Federal Bank Limited Nirman Vihar Branch, E-372 Nirman Vihar, New Delhi - 110092

on any subsequent date/s without further notice.

Br. New Delhi / Nirman Vihar KISHAN CHAND

Br. New Delhi / Nirman Vihar DEEPAK GUPTA

Br. New Delhi / Nirman Vihar DEEPAK GUPTA

Br. New Delhi / Nirman Vihar AKASH MISHRA

Date: 08.02.2023

Place: New Delhi / Nirman Vihai

Br. New Delhi / Nirman Vihar MEENAKSHI GUPTA

Br. New Delhi / Nirman Vihar PANKAJ KUMAR GUPTA

Branch Name

YOUR PERFECT BANKING PARTNE Regd. Office: Alwaye, Kerala PUBLIC NOTICE - GULD AUCTION

Loan A/c Nos (Rupeek ID)

14516100043040 (2270637)

14516100043164 (2272770)

14516800007972 (2235731)

14516800010984 (2254812)

14516800008806 (2241028)

14516800009861 (2247334)

Sd/-, Authorised Officer

For The Federal Bank Ltd

e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., on 01/03/2023 through online portal, https://gold.samil.in, Interested buyer may log on to the auction portal or contact the Bank at **Br. New Delhi / Nirman Vihar** for furthe information. In case e-auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the items

Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular that

Account Name

14516800002569 (2086614) Br. New Delhi / Nirman Vihar MANISH TANWAR 14516800002783 (2206008) 14516800002957 (2041441) 14516800003120 (2207566) 14516800003781 (2087869) 14516800004078 (2212931) 14516800004276 (2091505) 14516800004359 (2050996) 14516800004557 (2130751) Br. New Delhi / Nirman Vihar REKHA 14516100039782 (2183336) Br. New Delhi / Nirman Vihar NETHRA IYER 14516800005489 (2221278) Br. New Delhi / Nirman Vihar VIKAS SHARMA 14516800005422 (2125685) Br. New Delhi / Nirman Vihar MANISH 14516800005547 (2220197) Br. New Delhi / Nirman Vihar SAGAR BHARDWAJ 14516800006065 (2222430) 14516800006107 (2222420) 14516800006164 (2223046) 14516800006743 (2138074) 14516100042042 (2229272) Br. New Delhi / Nirman Vihar MEENAKSHI GUPTA 14516800007410 (2164004) Br. New Delhi / Nirman Vihar KISHAN CHAND 14516800007626 (2230973) Br. New Delhi / Nirman Vihar TARUNA RANI 14516800009432 (2243711) Br. New Delhi / Nirman Vihar RAJEEV KUMAR 14516800009937 (2089427) Br. New Delhi / Nirman Vihar ARVIND KUMAR MISHRA 14516800009994 (2025070) Br. New Delhi / Nirman Vihar DEEPAK GUPTA 14516800009697 (2244671) Br. New Delhi / Nirman Vihar KISHAN CHAND 14516800018417 (2229210)

55.00 Lakhs (Rupees Fifty-Five Lakhs only).

Village Chakki, PO Malwan, Tehsil Bindaki, Distt. Fatehpur, U.P., mortgaged on first paripassu charge basis in favour of IFCI Ltd. and IFCI Venture Capital Funds Ltd. The details of above-mentioned property are mentioned in the Tender Document as available on the website of IFCI Ltd. i.e. www.ifciltd.com.

No Other Known encumbrance w.r.t. to the above-mentioned property to the knowledge of IFCI Limited

website i.e. www.ifciltd.com Date: 07.02.2023

E Kubota

Escorts Kubota Limited

Escorts Kubota Limited (Formerly Escorts Limited)

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortsgroup.com

Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, 121 003, Haryana

CIN - L74899HR1944PLC039088

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

	ri -	is a second					15.11						83
SI.				Standalon	e Results					Consolida	ted Results		₹ In Crores
No	Particulars		3 Months ended		9 Months ended Year ended		Year ended	3 Months ended			9 Months ended		Year ended
19		December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total revenue from operations	2,263.67	1,883.48	1,971.50	6,162.00	5,327.33	7,196.90	2,291.35	1,890.80	1,998.29	6,214.21	5,396.01	7,282.65
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	191.46	268.82	630.94	752.40	1,021.88	235.62	182.86	261.62	610.02	735.37	992.83
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	118.70	268.82	558.18	752.40	1,021.88	235.62	129.81	261.62	556.97	735.37	992.83
4	Net Profit for the Period	186.40	87.66	201.52	421.51	563.44	765.61	180.80	98.80	193.71	420.19	545.63	735.61
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.45	97.57	196.49	422.47	546.13	737.69
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.47	97.60	196.97	422.57	546.05	738.55
7	Equity Share Capital	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94
8	Other Equity	A.T. 3-35001					7,746.24		03300		2-0,3,0-0,01		7,467.96
9	Earnings Per Share of ₹ 10 each:	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised		not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	
	(1) Basic (₹)	14.37	6.76	15.33	32.52	42.75	58.91	16.70	9.14	19.74	38.85	55.48	74.06
	(2) Diluted (₹)	14.35	6.75	15.30	32.48	42.67	58.71	16.68	9.12	19.67	38.79	55.35	73.73

Notes:

- The above standalone and consolidated financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 08, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

Nikhil Nanda (Chairman and Managing Director)

New Delhi

Date: 08/02/2023

Place: Faridabad

Foxconn is said to be the world's largest electronics manufacturer, with a total revenue exceeding NT\$ 6

further investments in the sector. We welcome Foxconn to Karnataka and wish them best of luck," Bommai said. Foxconn is said to be the

The primary product seg-

iab.com

GOVERNMENT OF PUNJAB GST NO. 03AAAAT3454G7ZN TENDER NOTICE REFERENCE NO. MCJ/2022-23/28

TENDER NOTICE

Department of THE PUNJAB STATE COOPERATIVE SUPPLY & MAR KETING FEDERATION invites online bids for the following Sr.No.

Purchase of Kesar Dalia, No Added As mentioned in Sugar Dalia and Honey Grits Terms & Conditions Closing Date & Time: On or Before 01.03.2023 upto 12.30 P.M. Date & Time for Opening of Technical Bid: 02.03.2023 at 11.30 A.M. For details log on to http://eproc.puniab.gov.in

NOTE: Any corrigendum(s) to the tender notice shall be published on the above website only.

Tender notice and terms & conditions can seen on website www.markfedpun

Markfed Canneries, Chuharwali, Jalandhar,

Registered Office: IFCI Tower, 61 Nehru Place New Delhi-110 019 Tel: 011-41732000/41792800 Website: www.ifciltd.com Government of India Undertaking (भारत संस्कार का जनकम्) CIN: L74899DL1993GO1053677

APPENDIX-IV A [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read

with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) Mortgagor and Guarantor(s), that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditors IFCI Ltd. & IFCI Venture Capital Funds Ltd. on first pari-passu charge basis, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of IFCI Ltd. (One of the Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 15.03.2023, for recovery of Rs 36,69,70,635.29 (Rupees Thirty-Six Crore Sixty Nine Lakhs Seventy Thousand Six Hundred Thirty Five and paise twenty nine only) as on 02.01.2023 together with further interest with effect from 03/01/2023 till realisation) due to the IFCI Ltd. (Secured Creditor) from Shri Lakshmi Cotsyn Ltd. (Borrower), M/s Shri Varahi Enterprises Limited (Earlier Known as Shri Lakshmi Polymer Ltd), the mortgagor and Sh. Mata Prasad Agarwal, Sh. Pawan Agarwal & Smt. Sharda Agarwal (Guarantor(s). The reserve price will be Rs. 5.50 Crore (Rupees Five Crore Fifty Lakhs Only) and the earnest money deposit will be Rs.

Description of the Immovable Property

All that piece and parcel of land to an extent of 33.76 acres or 135037 sq. mt. situated at

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in IFCI Ltd.'s

Authorised Officer Place: Delhi (IFCI Limited)

For Escorts Kubota Limited

financialexp.epag.in

Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional

Names of insolvency professionals identified N.A. to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)

commencement of a corporate insolvency resolution process of the Mcraygor Mechanicals Private

as authorised representative of the class [N.A.] in Form CA. - Not Applicable as per information available

The delegation consisted of

"Foxconn's potential invest-

Karnataka woos Foxconn for potential investment smart consumer electronics

mechanical parts, services). "With a strong and stable

extend full support to Foxconn and is thrilled to see Karnataka being considered as a potential

आजादीका

अमृत महोत्सव

<u>Funic vouce För Etkucuon For Säiefor immovanie Properties </u> Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at:- 316 - Purnima Plaza, Second floor, GMS - Road, Dehradun -248001. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcemen of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Borrower(s) /	Demand Notice	 Description of the 	Immovable property /		
Co-Borrower(s) /	Date and		red Asset	Date of Symbolic	Reserve Price
Guarantor(s)		All that part and par	cel Schedule - A : All that	Possession	
` '	Alliount				D 0 70 05 000/
1. M/S Ananya	15-Mar-2022		inicipal no. 11 (11-A, New		Rs. 9,78,85,000/-
Enterprises	l		ad, Dehradun measuring		(Rupees Nine Crore Seventy Eight
2. Mr. Mahesh			hedule - B : All that prop-	Outstanding As	Lakh Eighty Five Thousand Only)
l .	(Rupees Ten		pal no. 11 (11-A, New No.	On Date	Earnest Money Deposit (EMD)
Chander Babbar	Crore Sixty Seven		Dehradun measuring 854		Rs. 97,88,500 /- (Rupees Ninety
3. Mr. Shyam	Lakh Forty Eight		e - D : All that property		
	, ,	bearing municipal no	o. 11 (11-A, New No. 81),	Rs.10,52,79,375/-	Seven Lakh Eighty Eight
Sunder Babbar	Thousand Three	Kalidas Road, Dehr	adun measuring 850 Sq.	(Rupees Ten	Thousand Five Hundred Only)
4. Mrs. Vibhuti	Hundred Thirty	Mts. having covered	I area of 26 Sq. Mts.	Crore Fifty Two	Reserve Price
Babbar	One Only)	Schedule - E : A	All that property bearing	, ,	Rs. 2,76,09,000/- (Rupees Two
		municipal no. 11 (11	-A, New No. 81), Kalidas	Lakh Seventy	Crore Seventy Six Lakh Nine
(Prospect No.	Bid Increase	Road, Dehradun me	easuring 150 Sq. Mts	Nine Thousand	Thousand Only)
765354, 936103,	Amount	·	at property bearing no. 11	Three Hundred	
· '	Rs.10,00,000/-		ad, Dehradun measuring		Earnest Money Deposit (EMD)
955062 and	(Rupees Ten		of which covered area is		Rs. 27,60,900 /- (Rupees Twenty
961940)	Lakh Only)		of which covered area is	Only)	Seven Lakh Sixty Thousand Nine
l '	Lakii Oiliy)	29. 64 Sq. Mts.			Hundred Only)
Date	of Inspection of pr	operty	EMD Last Date		Date/ Time of E-Auction
40.00			4 = 3 4 0000 (111 =	4	

13-Mar-2023 1100 hrs -1400 hrs

Mode of Payment:- All payment shall be made by demand draft in favour of "IIFL Home Finance Limited" payable at Gurugram or throughRTGS/NEF the Accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard CharteredBank, c) Account No 9902879 followed by Loan Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001 e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001

15-Mar-2023 till 5 pm.

. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com

well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed

the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the

AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit an payment shall be in the prescribed mode of payment The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electric

ity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.

Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceeding For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- support@bankeauc tions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and for any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- auction.hl@jifl.com

Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled ar the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 9. any stage by the successful bidder I auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amour already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.

0. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final. STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

he Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Place:-New Delhi , Date: 09-Feb-2023 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited

FERROUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

B-22, Lower Ground Floor, Jangpura Extension,

07-02-2023 (Date of receipt of copy of admission

Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00125/2017-18/10294

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

FERROUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

02-02-2006

Registrar of Companies

Delhi & Haryana (RoC-Delhi)

U45201DL2006PTC145748

order pronounced on 02.02.2023)

Narender Kumar Sharma

Plot No.- 112A, Phase-V, Udyog Vihar,

E-mail: nksharma.fcs@gmail.com

Plot No.- 112A, Phase-V, Udyog Vihar,

E-mail: cirp.ferrousinfra@gmail.com

21-02-2023 (14 days from CIRP Commencement)

Regn. No.; IBBI/IPA-001/IP-P-02771/2022-2023/14251

Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N01046/2021-2022/13625

Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00125/2017-18/10294

Narender Kumar Sharma

AFA Valid upto: 07.12.2023

Gurugram, Haryana-122016

Gurugram, Haryana-122016

Name of Corporate Debtor

incorporated / registered

Date of incorporation of Corporate Debtor

Authority under which Corporate Debtor is

Corporate Identity No. / Limited Liability

principal office (if any) of Corporate Debtor | New Delhi-110014

Classes of creditors, if any, under clause (b) of Home Buyers (Real Estate Allottees)

to act as authorised representative of creditors | Regn. No.: IBBI/IPA-003/ICAIN00426/2022-2023/14179

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a

(Copy of the order uploaded on NCLT website and received by the IRP on 07-02-2023)

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties as per Law.

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

corporate insolvency resolution process of the Ferrous Infrastructure Private Limited on 02-02-2023

The creditors of Ferrous Infrastructure Private Limited, are hereby called upon to submit their claims

with proof on or before 21-02-2023 to the interim resolution professional at the address mentioned agains:

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12 above, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13

above to act as authorised representative of the Financial Creditors in Class (Real Estate Allottees) in

Date: 08.02.2023 Interim Resolution Professional for Ferrous Infrastructure Private Limited

2. Sanjay Singhal

3. Rahul Maheshwari

(a) Web Links: https://ferrousinfra.in

https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Udyog Vihar, Gurugram, Haryana-122016

(b) Physical Address: Plot No.- 112A, Phase-V,

Identification No. of Corporate Debtor

Insolvency commencement date in

Estimated date of closure of insolvency

Name and Registration number of the

insolvency professional acting as Interim

Address & email of the interim resolution

professional, as registered with the board

sub-section (6A) of section 21, ascertained by

Names of insolvency professionals identified 1. Sunit Sethi

Address and e-mail to be used for

correspondence with the Interim

Last date for submission of claims

the Interim Resolution Professional

in a class (three names for each class)

(b) Details of authorized representatives

4. (a) Relevant forms available at

Place: Gurugram, Haryana

respect of Corporate Debtor

resolution process

Resolution Professional

Resolution Professional

Karnataka woos Foxconn for potential investment

PRESS TRUST OF INDIA Bengaluru, February 8

17-Mar-2023 1100 hrs-1300 hrs.

Name of Corporate Debtor

ncorporated / registered

Date of incorporation of Corporate Debtor

Authority under which Corporate Debtor is

principal office (if any) of Corporate Debtor (as per the MCA website)

Classes of creditors, if any, under clause (b) of Not Applicable as per information available

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Chandigarh Bench has ordered the

commencement of a corporate insolvency resolution process of the Mcraygor Mechanicals Private

The creditors of Mcraygor Mechanicals Private Limited, are hereby called upon to submit their claims

with proof on or before 22.02.2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act

as authorised representative of the class [N.A.] in Form CA. - Not Applicable as per information available

Date: 08.02.2023 Interim Resolution Professional for Mcraygor Mechanicals Private Limited

Corporate Identity No. / Limited Liability

Identification No. of Corporate Debtor

Address of the registered office and

Insolvency commencement date in

Estimated date of closure of insolvency

Name and Registration number of the

insolvency professional acting as Interim

Address & email of the interim resolution

Address and e-mail to be used for

correspondence with the Interim

Last date for submission of claims

the Interim Resolution Professional

professional, as registered with the board

sub-section (6A) of section 21, ascertained by with IRP till date

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Names of insolvency professionals identified N.A.

to act as authorised representative of creditors

(b) Details of authorized representatives

in a class (three names for each class)

(a) Relevant forms available at

are available at:

Place: New Delhi

respect of Corporate Debtor

resolution process

Resolution Professional

Resolution Professional

AHIGH-LEVEL delegation from the government of Karnataka on Wednesday met Hon Hai Technology Group (Foxconn) chairman Young Liu at the company headquarters in Taiwan, and held discussions about investment plans in the state.

The delegation consisted of Gunjan Krishna, Commissioner for Industrial Development and Director of Industries and Commerce, and Kedarnath Mudda, Senior Advisor to Basavarai Bommai, chief minister of Karnataka. Foxconn's spokesman James Wu, Chief Investment Officer James Tu, and some more executives were also present on the occasion, an official release said.

"Foxconn's potential investment in Karnataka will be a testament to the State's industrial landscape. We are working towards building the best elec-

MCRAYGOR MECHANICALS PRIVATE LIMITED

Registrar of Companies - Delhi & Haryana

1402, Sector-6 Bahadurgarh HR -124507 IN

06/08/2023 (180 days beginning Insolvency

2236, Sector 46, Gurugram Haryana - 122001

(This email is not to be used for sending claims)

E-mail: cirp.mcraygor@gmail.com

(This email is to be used for sending claims)

2236, Sector 46, Gurugram Haryana - 122001

E-mail: insolvencyprofessional@rediffmail.com

(a) To Download the relevant Forms, the weblink is

(b) Not Applicable as per information available with

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097

https://ibbi.gov.in/home/downloads

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097

U29150HR2001PTC034671

Commencement date)

Naveen Kumar Jain

AFA Valid upto: 05.10.2023

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

MCRAYGOR MECHANICALS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

Foxconn is said to be the world's largest electronics manufacturer, with a total revenue exceeding NT\$ 6 trn (New Taiwan dollar)

tronics and manufacturing ecosystems, which will attract further investments in the sector. We welcome Foxconn to Karnataka and wish them best of luck," Bommai said.

Foxconn is said to be the world's largest electronics manufacturer, with a total revenue exceeding NT\$ (New Taiwan dollar) 6 trillion in 2022. As of last year, it ranks 20th in the Fortune Global 500. Foxconn has 173 campuses and offices in 24 countries or regions around the world.

The primary product segments for the company include

smart consumer electronics (smartphones, TVs, game consoles, among others), cloud and networking products (servers, communication networks), computing products (computers, tablets) and components and others (connectors, mechanical parts, services).

"With a strong and stable industrial policy, our aim is to make Karnataka a key electronics and manufacturing hub. With Foxconn's potential investment, the State is gearing up to be the topmost in the country to attract many other global electronics companies," said Large and Medium Industries Minister Murugesh Nirani.

Gunjan Krishna said the government would like to extend full support to Foxconn and is thrilled to see Karnataka being considered as a potential investment destination.

West sanctions won't hit India-Russia defence ties, says BrahMos chief

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 8

THE INDIA-RUSSIA defence partnership will "never" be disrupted by the Western sanctions on Moscow, BrahMos Aerospace chief said on Wednesday, saying it's the "trust" that makes this partnership work.

The West, led by the US, has imposed crippling sanctions on Russia for its invasion of Ukraine in February 2022.

BrahMos Aerospace is a joint venture between India and Russia that specialises in nuclear-capable supersonic missiles. The company currently

manufactures the BrahMos missile and is currently developing the BrahMos II, a hypersonic cruise missile. The West's attempts will

not stop the Russia-India defence partnership, nor will it impact the company's operations, BrahMos Aerospace Indo-Russian Joint Venture Managing Director and CEO

Atul Dinkar Rane told TASS, the official news agency of Russia.

"My personal gut feeling — it is never!" Rane said when asked whether Western countries could halt India-Russia defence and security

cooperation. "And if someone tries, he will only fail. The relationship between the Indian scientists and Russian technologists is so deep right now that it's not going to be possible to break it. Even if someone tells us by law — no more talking with Russia, you will start talking to some-

it was easier to work with the Russians," Tass quoted him as saying. Rane asserted it is the

one else — but we'll always say

trust between India and Russia that will help this partnership work despite sanctions from the West.

"The trust which we have developed between the two partners,... that trust is good enough for us to work, and we are working forward — despite all these sanctions," Rane said.

The Federal Bank Limited Nirman Vihar Branch, E-372 Nirman Vihar. New Delhi - 110092 PUBLIC NOTICE - GOLD AUCTION

Br. New Delhi / Nirman Vihar KISHAN CHAND

Br. New Delhi / Nirman Vihar KISHAN CHAND

Br. New Delhi / Nirman Vihar DEEPAK GUPTA

Br. New Delhi / Nirman Vihar AKASH MISHRA

Date: 08.02.2023,

Place: New Delhi / Nirman Vihar

Br. New Delhi / Nirman Vihar MEENAKSHI GUPTA

Br. New Delhi / Nirman Vihar PANKAJ KUMAR GUPTA

Branch Name

YOUR PERFECT BANKING PARTNEI Regd. Office: Alwaye, Kerala

Loan A/c Nos (Rupeek ID)

14516800018417 (2229210)

14516100043040 (2270637)

14516100043164 (2272770)

14516800007972 (2235731)

14516800010984 (2254812)

14516800008806 (2241028)

14516800009861 (2247334)

Sd/-, Authorised Officer

For The Federal Bank Ltd

Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular that e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., on 01/03/2023 through online portal, https://gold.samil.in. Interested buyer may log on to the auction portal or contact the Bank at **Br. New Delhi / Nirman Vihar** for further information. In case e-auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the items on any subsequent date/s without further notice

14516800002569 (2086614) Br. New Delhi / Nirman Vihar MANISH TANWAR 14516800002783 (2206008) 14516800002957 (2041441) Br. New Delhi / Nirman Vihar RAJ KUMAR 14516800003294 (2129064) 14516800003120 (2207566) 14516800003781 (2087869) Br. New Delhi / Nirman Vihar AKRATI JAISWAL 14516800004078 (2212931) 14516800005091 (2217881) 14516100039782 (2183336) 14516800005489 (2221278) Br. New Delhi / Nirman Vihar NETHRA IYER Br. New Delhi / Nirman Vihar VIKAS SHARMA 14516800005422 (2125685) 14516800005547 (2220197) Br. New Delhi / Nirman Vihar MANISH Br. New Delhi / Nirman Vihar SAGAR BHARDWAJ 14516800006065 (2222430) 14516800006107 (2222420) 14516800006370 (2224509) Br. New Delhi / Nirman Vihar ANUP CHAND PAWAN 14516800006388 (2225230) 14516100040012 (2185508) Br. New Delhi / Nirman Vihar GAGANDEEP SINGH Br. New Delhi / Nirman Vihar NASEEM ALI 14516800006164 (2223046) Br. New Delhi / Nirman Vihar UTPAL KANT CHOUDHAR 14516800006743 (2138074) Br. New Delhi / Nirman Vihar LALIT KUMAR 14516100042042 (2229272) Br. New Delhi / Nirman Vihar MEENAKSHI GUPTA 14516800007410 (2164004) 14516800007626 (2230973) 14516800007592 (2232325) Br. New Delhi / Nirman Vihar MAHESH KUMAR 14516800009481 (2076310) 14516800009432 (2243711) Br. New Delhi / Nirman Vihar SURESH PAL 14516800009937 (2089427) Br. New Delhi / Nirman Vihar RAJEEV KUMAF 14516800009994 (2025070) 14516800009697 (2244671)

Account Name

TENDER NOTICE **GOVERNMENT OF PUNJAB** GST NO. 03AAAAT3454G7ZN

TENDER NOTICE REFERENCE NO. MCJ/2022-23/28 Department of THE PUNJAB STATE COOPERATIVE SUPPLY & MAR-KETING FEDERATION invites online bids for the following Sr.No.

Sugar Dalia and Honey Grits Terms & Conditions Closing Date & Time: On or Before 01.03.2023 upto 12.30 P.M. Date & Time for Opening of Technical Bid: 02.03.2023 at 11.30 A.M. For details log on to http://eproc.punjab.gov.in Tender notice and terms & conditions can seen on website www.markfedpun NOTE: Any corrigendum(s) to the tender notice shall be published on the

New Delhi-110 019

आई एक सी आई तिमिटेड A Government of India Undertaking (भारता दगरमगर का उपक्रम)

Registered Office: IFCI Tower, 61 Nehru Place Tel: 011-41732000/41792800 Website: www.ifciltd.com CIN: L74899DL1993GO1053677 APPENDIX-IV A

Manager,

Markfed Canneries,

Chuharwali, Jalandhar,

आज़ादीका

अमृत महोत्सव

[See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) Mortgagor and Guarantor(s), that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditors IFCI Ltd. & IFCI Venture Capital Funds Ltd. on first pari-passu charge basis, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of IFCI Ltd. (One of the Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 15.03.2023, for recovery of Rs. 36,69,70,635.29 (Rupees Thirty-Six Crore Sixty Nine Lakhs Seventy Thousand Six Hundred Thirty Five and paise twenty nine only) as on 02.01.2023 together with further interest with effect from 03/01/2023 till realisation) due to the IFCI Ltd. (Secured Creditor) from Shri Lakshmi Cotsyn Ltd. (Borrower), M/s Shri Varahi Enterprises Limited (Earlier Known as Shri Lakshmi Polymer Ltd), the mortgagor and Sh. Mata Prasad Agarwal, Sh. Pawan Agarwal & Smt. Sharda Agarwal (Guarantor(s). The reserve price will be Rs. 5.50 Crore (Rupees Five Crore Fifty Lakhs Only) and the earnest money deposit will be Rs. 55.00 Lakhs (Rupees Fifty-Five Lakhs only).

Description of the Immovable Property

All that piece and parcel of land to an extent of 33.76 acres or 135037 sq. mt. situated at Village Chakki, PO Malwan, Tehsil Bindaki, Distt. Fatehpur, U.P., mortgaged on first paripassu charge basis in favour of IFCI Ltd. and IFCI Venture Capital Funds Ltd. The details of above-mentioned property are mentioned in the Tender Document as available on the website of IFCI Ltd. i.e. www.ifciltd.com.

No Other Known encumbrance w.r.t. to the above-mentioned property to the knowledge of IFCI Limited. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in IFCI Ltd.'s

website i.e. www.ifciltd.com. Date: 07.02.2023 Authorised Officer Place: Delhi (IFCI Limited)

E Kubota

Naveen Kumar Jain

Escorts Kubota Limited

Escorts Kubota Limited (Formerly Escorts Limited)

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortsgroup.com Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, 121 003, Haryana

CIN - L74899HR1944PLC039088

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2022

SI.				Standalor	ne Results					Consolidat	ed Results		₹ In Crores
lo.	Particulars		3 Months ended		9 Months ended		Year ended	5	3 Months ended			9 Months ended	
		December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
	720000	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Total revenue from operations	2,263.67	1,883.48	1,971.50	6,162.00	5,327.33	7,196.90	2,291.35	1,890.80	1,998.29	6,214.21	5,396.01	7,282.65
	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	191.46	268.82	630.94	752.40	1,021.88	235.62	182.86	261.62	610.02	735.37	992.83
1	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	118.70	268.82	558.18	752.40	1,021.88	235.62	129.81	261.62	556.97	735.37	992.83
	Net Profit for the Period	186.40	87.66	201.52	421.51	563.44	765.61	180.80	98.80	193.71	420.19	545.63	735.61
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.45	97.57	196.49	422.47	546.13	737.69
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.47	97.60	196.97	422.57	546.05	738.55
.	Equity Share Capital	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94
	Other Equity	20.2510.02	3833555585		VALUE CONTRACT		7,746.24	(\$505-50000)			Malaca		7,467.96
	Earnings Per Share of ₹ 10 each:	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	MY OH	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	1455000 200
	(1) Basic (₹)	14.37	6.76	15.33	32.52	42.75	58.91	16.70	9.14	19.74	38.85	55.48	74.06
	(2) Diluted (₹)	14.35	6.75	15.30	32.48	42.67	58.71	16.68	9.12	19.67	38.79	55.35	73.73

Notes:

- The above standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 08, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

For Escorts Kubota Limited Nikhil Nanda

Chandigarh

Date: 08/02/2023

Place: Faridabad

financialexp.ep.pr.in





(Chairman and Managing Director)

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट

नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार ● 9 फरवरी ● 2023

TEIT www.rashtriyasahara.com



बुधवार को संसद मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती । फोटो : एसएनबी

जम्म् कश्मीर में अतिक्रमण रोधी अभियान

पुलिस ने महबूबा को संसद तक मार्च करने से रोका

नर्ड दिल्ली (भाषा)। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के विरोध में बुधवार को यहां राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर उतरीं। संसद तक मार्च करने के इरादे से महबूबा बोट क्लब इलाके में पहुंची, जहां उनके दर्जनों समर्थक एकत्र हुए थे। उनके हाथों में तिख्तयां थीं, जिनपर लिखा था, ' डराना-धमकाना बंद करो, 'स्टॉप बुलडोजिंग' (इमारतें ध्वस्त करना बंद करो)।' पीडीपी प्रमुख जम्मू कश्मीर में चलायी जा रही 'बुलडोजर नीति' से विपक्षी दलों को अवगत कराना चाहती थीं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया तथा उन्हें और उनके समर्थकों को जंतर मंतर पर ले गयी। इसके बाद, प्रदर्शनकारी वहां से चले गये। महबुबा ने कहा, ' हम लोगों, विपक्षों दलों और सत्तारूढ भाजपा के सदस्यों को जम्म कश्मीर के लोगों की परेशानियों के बारे में बताने आए थे।"उन्होंने सवाल किया, ' अगर हम संसद नहीं जा सकते, तो हम कहा जाएं। क्या सरकार चाहती है कि हम अपनी शिकायतें लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएं?' प्रदर्शन के दौरान महबूबा महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर इसे अफगानिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर में कानून का शासन नहीं है। पहले हमें हमारी पहचान से और फिर नौकरियों से वंचित किया गया तथा अब वे हमें घरों एवं दुकानों से वंचित कर रहे हैं। आखिर यह सरकार चाहती क्या है?' उन्होंने आरोप लगाया,''जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है।' पीडीपी प्रमुख ने कहा, " हम अपने दिल की बात कहने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां भी

पीडीपी और जम्मू कश्मीर के अन्य राजनीतिक दलों ने अतिक्रमण रोधी अभियान की निंदा की है और प्रशासन से इसे रोकने की अपील की है। उनका दावा है कि इस अभियान से गरीब प्रभावित हो रहे हैं।

आम आदमी की आवाज दबा दी गई।"

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (ORDER 5, RULE 20 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE) IN THE COURT OF MS. NEHA GARG, CIVIL JUDGE-01 CENTRAL, TIS HAZARI COURTS, DELHI ROOM NO-41 SUIT NO. 3395/2018 Next Date of Hearing- 05.04.2023 ICICI BANK LTD.

V/S. DALJIT SINGH TO DEF-DALJIT SINGH, S/O SH. AJ SINGH. R/O- H. NO.-125, GROUND FLOOR, SUBHASH KHAND, GIRI NAGAR, KALKAJI, NEW DELHI-110019.

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on 05.04.2023 at 10:00 O'clock the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte Given under my hand and the seal of the court, 31.01.2023.

Civil Judge- 01 Delh

प्रतिवादी की उपस्थिति की अपेक्षाकारी उदघोषणा (सिविल प्रक्रिया संहिता का आर्डर 5, रूल 20) श्री परमजीत सिंह, विद्वान जिला न्यायाधीश, के न्यायालय में (कॉमर्शियल कोर्ट)-06 सेन्टल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली सीएस (सीओएमएम) - 1543/21 सुनवाई की अगली तारीख- 16-03-2023 आईसीआईसीआई बैंक प्रा. लि.

मोहम्मद इजरायल गत्र श्री मोहम्मद इस्माइल वासी म. नंबर आरजैड–901–बी, ाली नंबर 24, तुगलकाबाद क्सटेशन अपार्टमेंट ालकाजी, नई दिल्ली–110019

अन्य पता -गम – बासुओ, डॉगरी लिस स्टेशन कटरा. ातामढ़ी, मुजपफरपुर,

नबिक आप सम्मन प्राप्त करने से जानबूझव च रहे हैं, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जात कि यदि आप अंतिम निपटान के लिए निय तेथि 16-03-2022 को वाद का बचाव कर के लिए हाजिर नहीं होंगे, तो वाद की सुनवा नथा निर्धारण एकपक्षीय आधार पर किर नेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मोह

गाकर दिनांक 17-01-2023 को दिया गया जिला न्यायाधीश (कॉमर्शियल कोर्ट)-06, सेंट्रल तीस हजारी, दिर्ल

लीगल सेल की बैठक में तय की जिम्मेदारी **PUBLICATION**

IN THE COURT OF SH. UMED SINGH GREWAL DISTRICT JUDGE COMMERCIAL- 05, CENTRAL, ROOM NO. 22, TIS HAZARI COURTS, DELHI PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order 5, Rule 20 of the Code of

Civil Procedure)
Case No. CS (COMM.)1596/2022
Next Date of Hearing- 10.03.2023 ICICI BANK LTD. ...PLAINTIFF

V/S.
M/S. BLUE SKY AVIATION

To, M/S. BLUE SKY AVIATION, (BORROWER), THROUGH ITS PROP. SH. JAVED ALI, FLATS NO. 94-A, GALI NO.-35, RAJA PURI, UTTAM NAGAR, WEST DELHI, DELHI-110059. MOBILE NO.- 9811076515. The defendant above named WHEREAS you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that in case you do not defend the case which is fixed on the 10.03.2023 at 10:00 A.M., it will be heard in your absence and determined ex-party ds per law. Given under my hand and the seal

District Judge (Commercial Court)-05 Central Tis Hazari Courts, Delhi

of the court on 23.01.2023.

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) IN THE COURT OF SH. VINAY

KUMAR KHANNA, LD.
DISTRICT JUDGE,
(COMMERCIAL- COURT),
SOUTH DISTRICT, ROOM NO.
503, SAKET COURTS, NEW

503, SAKET COURTS,
DELHI
SUIT NO:- CS (COMM) 129/20
Next Date of Hearing- 23.02.2023
J.(Civil)-12 Title: ICICI BANK LTD. ...Plaintiff VS.
MEERA DEVI ...Defendant

MEERA DEVI

D/O SH. RAMPRASAD THAKUR, R/O H. NO.816, GALI NO.-16, SADARPUR COLONY, SECTOR 45, NEAR KASHIRAM AMPRALI SAFAIER, NEAR GAUTAM BUDDH NAGAR, NOIDA, U.P. -ALSO AT :-

VII I -SADARPUR, SEC.45. GAUTAM BUDDH NAGAR, NOIDA, U.P.- 201301. WHEREAS You are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 23RD DAY OF FEBRUARY, 2023 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-

Given under my hand and the seal of the court, this 30TH Day of JANUARY, 2023.

District Judge Commercial Court- 02 (Central) Saket Court Complex, New Delh

न्ई दिल्ली (एसएनबी)। यूनाइटेड हिंदू फ्रांट लीगल सेल की बैठक में हिंदू विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी शिक्तयों का विरोध करने वालों के मुकदमे लड़ने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई। सर्वोच्च न्यायालय के लायर्स चेंबर, शीतलवाड ब्लॉक में फ्रंट के लीगल सेल के अध्यक्ष अरुणेश्वर गुप्ता के चेंबर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता फ्रांट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने

की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) IN THE COURT OF SH. PARAMJIT SINGH, LD. (COMMERCIAL COURT)-06 CENTRAL, TIS HAZARI COURTS, DELHI

CS (COMM) 2430/21 Next Date of Hearing- 23.03.2023 ICICI BANK LTD.

V/S KUSHAL PAL SINGH

To, KUSHAL PAL SINGH S/O SH. SURESH PAL SINGH R/O H.NO. 55/5, 2ND FLOOR, 8 DLF PHASE- 3, NEAR CYBER CITY,

GURGAON, HARYANA- 122001 WHEREAS you are intentionally evading service of summon it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 23-03 2023 the day fixed for the final disposal, it will be heard and

Given under my hand and the seal

determined ex-parte.

of the court, this 01.02.2023. **District Judge** (Commercial Court)-06 Central Tis Hazari Courts, Delh

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
Publication Reciept No.:-

IN THE COURT OF MS. ILLA RAWAT, LD. DISTRICT JUDGE, COMMERCIAL COURT- 03, CENTRAL, ROOM NO. 202, TIS HAZARI COURT, DELHI

CS (COMM):-3955/2021 Next Date of Hearing- 11.05.2023 ICICI BANK LTD.

RAKESH KUMAR GAUTAM

TO, RAKESH KUMAR GAUTAM S/O SH. SHYAM BABU GAUTAM SHO. WZ-80, 1ST FLOOR, PHASE-2, NR. M K DAIRY, OM VIHAR, UTTAM NAGAR, DELHI-110059 ALSO AT :

H.NO: 107, NAUGWAN VILLAGE, SADABAD, HATHRAS, U.P- 201306 ALSO AT : BAJAJ FINANCE LTD., DESIG-ASSIST. MANAGER-1, OFFICE NO. 1052, 10TH FLOOR, AGGARWAL NETAJI SUBHASH

PLACE, DELHI- 110034 WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 11.05.2023 the day fixed for the final disposal, it will be heard and

determined ex-parte.

Defendant should file his written statement of defence within 30 days from the date of service/receipt of summons.

Given under my hand and the seal of of the court, 02.02.2023.

> District Judge (Commercial Court)-03 Tis Hazari Courts, Delhi

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट वरुण सिन्हा को लीगल सेल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। एडवोकेट एपी सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ एडवोकेट पीएस शर्मा को तीस हजारी कोर्ट का अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इनके अतिरिक्त एडवोकेट बीआर वर्मा को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेने का निर्णय हुआ। फ्रंट के लीगल

सेल के दिल्ली के अध्यक्ष वरिष्ठ एडवोकेट जितेंद्र सेठी बनाए गए। गोयल ने बताया कि जल्द ही रोहिणी, द्वारका एवं साकेत कोर्ट में भी बैठक कर वहां की भी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। जबकी पटियाला हाउस कोर्ट, कडकडड्मा कोर्ट व तीस हजारी कोर्ट की कार्यकारिणी का गठन पहले ही

गुभम् हाउसिंग डवलपमेंट फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पी. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेज—4, गुड़गांव—122015 (हरियाणा), फोन : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

अचल सम्पत्ति(यों) की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना नियम 8(6) के परंतुक तथा परिशिष्ट IV-क के अनुसार अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन)

जबिक अघोहस्ताक्षरी ने शुभम् हाउसिंग डवलपमेंट फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड (इसमें आगे कम्पनी कही गई है) का एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूर्तिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिमूर्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के तहत और प्रतिमूर्ति हित प्रवर्त-नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 9 के साथ पठित घारा 13(2) के तहत उसको प्रदल्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए कर्जदारों, जिनके नाम नीचे कालम (सी) में दर्शाए गए हैं, को नीचे कालम (डी) में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों को मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें उनसे कालम (ई) में दर्शाई गई उनकी तरफ बकाया राशियों का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त बकाया राशि के वसूली के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 9 के तहत उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी वे

संबंध में कोई भी संव्यवहार शुभम् हाउसिंग डवलपमेंट फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (जी) में वर्णित बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा। अब, कर्जदार तथा जन साधारण को एतद्द्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त सम्पत्तियां प्रत्येक सम्पत्ति के सामने कालम (के) में विनिर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर नीचे वर्णित नियम एवं शर्तों के तहत तथा प्रक्रिया के अनुसार मोहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित करने के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी

पास बंधक रखी गई सम्पत्ति, जिसका वर्णन कालम (एफ) में दिया गया है, का कब्जा नीचे कालम (एच) मे वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को कालम (एफ) में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सतर्क किया जाता है तथा सर

ह्यारा	बेची जाएंग) l								
豖.	आवेदन	कर्जदारों का	घारा 13(2)	मांग	कब्जे में ली	04.02.2023	कब्जा	वर्तमान	ईएमडी (रू.)	
सं.	संख्या	नाम एवं पता	के तहत सूचना की तिथि	सूचना राशि	गई सम्पत्ति	तक बकाया राशि	की तिथि		(आरपी की 10 प्रतिशत)	
y	बी	सी	ভী	ई	एफ	जी	एच	ें आई	जे '	के
1.		मोहम्मद आबिद, आसिफ,	19-08-2016	₹6.	एमपीएल नंबर 3/781/	₹5.	15-12-2016,	₹9.	₹5.	14-03-2023
	_010578	एमपीएल–311664		4,05,218/-	18, (पुराना) एवं 3 / 1664		(सांकेतिक)	7,53,760/-	75,376/-	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00
		जनक नगर			(नया) वाके मोह. खानालामपुरा					बंजे तक 2 बी / 1386, प्रथम
		फूल वाली गली,			दर आबादी, जनक नगर,					त्ल, कोर्ट रोड, आर.जी. पैलेस
_		सहारनपुर-247001			सहारनपुर-247001					के सामने, सहारनपुर–247001
2.		राहुल विकल, चंद्रावती,	22-05-2021	₹0.	खसरा नंबर 90, ग्राम		19-08-2021,	₹9.	₹0.	24-02-2023
	049659	एच. नंबर 115,		5,85,175/-	खेड़ा बलरामपुर, मेरठ,	8,34,076/-	(सांकेतिक)	64,75,392/-	6,47,539/-	पूर्वा. 11.00 बजे से
	_0.0000			-,,						
	_0.0000	गली नंबर 2, इंद्रापुरम		2,22,	उत्तर प्रदेश-250002	1,0 ,0.0	(,	, ,,	1,,	अप. 2.00 बजे तक
	_0.0000	गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, मेरठ ,		2,22,			(1 7		.,.,	अंप. 2.00 बजे तक 2 बी / 1386, प्रथम तल, कोर्ट
	_0.000	गली नंबर 2, इंद्रापुरम		2,00,110		,,,,,,,,,	(,		,,	अंप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आर.जी. पैलेस के सामने,
		गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250103			उत्तर प्रदेश—250002					अंप. 2.00 बजे तक 2 बी / 1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आर.जी. पैलेस के सामने, सहारनपुर–247001
3.	SAH_1504	गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250103 सुमन देवी, राकेश कुमार,	22-04-2021	₹5.	उत्तर प्रदेश—250002 प्राइवेट प्लॉट नंबर 186	₹5.	26-07-2021,	₹5.	₩.	अंप. 2.00 बजे तक 2 बी / 1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आर.जी. पैलेस के सामने, सहारनपुर—247001 14-03-2023
3.	SAH 1504	गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, भेरठ, उत्तर प्रदेश—250103 सुमन देवी, राकेश कुमार, प्राइवेट प्लॉट नंबर 186			उत्तर प्रदेश—250002 प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा	₹5. 2,14,113/-				अप. 2.00 बजे तक 2 बी/ 1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आर.जी. पैलेस के सामने, सहारनपुर-247001 14-03-2023 पूर्वी. 11.00 बजे से
3.	SAH_1504	गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, मेरठ, उत्तार प्रदेश—250103 सुमन देवी, राकेश कुमार, प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा		₹5.	उत्तर प्रदेश-250002 प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 4, दर आबादी	₹5. 2,14,113/-	26-07-2021,	₹5.	₩.	अंप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आर.जी. पैलेस के सामने, सहारनपुर-247001 14-03-2023 पूर्वी. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक
3.	SAH_1504	गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250103 सुमन देवी, राकेश कुमार, प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 47, 8, वाके दारा		₹5.	उत्तर प्रदेश-250002 प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 4, दर आबादी शाक्टम्बरी विहार कालोनी,	₹5. 2,14,113/-	26-07-2021,	₹5.	₩.	अंप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आरजी. पैलेस के सामने, सहारनपुर—247001 14-03-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट
3.	SAH_1504 _037714	गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250103 सुमन देवी, राकेश कुमार, प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 47, 8, वाके दारा मिलकाना बैरून दर		₹5.	उत्तर प्रदेश-250002 प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 4, दर आबादी शाकुम्बरी विहार कालोनी, तहसील जिला सहार्नपुर-	₹5. 2,14,113/-	26-07-2021,	₹5.	₩.	अप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आरजी, पैलेस के सामने, सहारनपुर—247001 14-03-2023 पूर्वी. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आरजी, पैलेस के सामने,
3.	SAH_1504 _037714	गली नंबर 2, इंद्रापुरम परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250103 सुमन देवी, राकेश कुमार, प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 47, 8, वाके दारा		₹5.	उत्तर प्रदेश-250002 प्राइवेट प्लॉट नंबर 186 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 4, दर आबादी शाक्टम्बरी विहार कालोनी,	₹5. 2,14,113/-	26-07-2021,	₹5.	₩.	अंप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट रोड, आरजी. पैलेस के सामने, सहारनपुर—247001 14-03-2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक 2 बी/1386, प्रथम तल, कोर्ट

नोट : कम्पनी की जानकारी के अनुसार, उपरोक्त सम्पत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। नीलामी बिक्री सूचना के नियम एवं शर्ते। सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्ते :– बोलियां आमंत्रित करने द्वारा सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम एवं शर्ते

क्रमांक 2 पर सम्पत्तियों का निरीक्षण 16-02-2023 को और क्रमांक 1, 3 पर सम्पत्तियों का निरीक्षण 06-03-2023 को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक बिक्री सरफासी ऐक्ट/रूल्स, 2002 में निर्धारित शर्तों तथा यहां नीचे दिए गए नियम एवं शर्तों और प्रत्याशी/प्रतिमागी बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऑफर/बोली

बोलियां सीलबंद लिफाफे में अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय में घरोहर राशि जमा हेतु शुमम् हाउसिंग उवलपमेंट फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में, स्थानीय देय, डिमां द्राफ्ट/पे आर्डर के साथ जमा की जाएंगी। घरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रत्याशी बोलीदाता को अपनी बोली के साथ अपनी पहचान का प्रमाण/केवाईसी प्रतिमान तथा निवास का प्रमाण जैसेकि पासपोर्ट, आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग कार्ड, राशन कार्ड, डाइविंग लाइसेन्स इत्यादि तथा आयकर विमाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। घरोहर राशि जमा के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथि क्रमांक 2 पर सम्पत्तियों के लिए 23-02-2023 और क्रमांक 1, 3 पर सम्पत्तियों के लिए 13-03-202

को अथवा पूर्व पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक है। . सम्पत्ति किसी भी स्थिति में प्रत्येक सम्पत्ति के सामने दर्शित सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेवी जाएगी। . बिक्री की तिथि को, उपरोक्तानुसार प्राप्त समी बोलियां खोली जाएंगी तथा कम्पनी द्वारा उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकार की जा सकती है, परंतु शर्त यह है कि यह सुरक्षि

मृत्य से अधिक होनी चाहिए। तथापि, नीलामी स्थल पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद बोलीदाताओं को अपनी बोली कम से कम रू. 5,000/— (रू. पांच हजार मात्र) और आगे बढ़ाने का अधिकार होगा और कम्पनी को ऑफर की गई उच्चतम बोली रखीकार करने का अधिकार होगा। तदुपरांत, क्रेता को बिक्री मृत्य की 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) राशि, घरोह राशि जमा समायोजित करते हुए, बोली छूटते ही, उसी समय अधोहस्ताक्षरी के पास जमा करनी होगी। कम्पनी उक्त राशि प्राप्त होने पर बोली स्वीकार किए जाने की पुष्टि करेगी समय आगे बढ़ाए जाने का अनुरोध प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके विवेकानुसार उपयुक्त विचारित नियम एवं शतों के तहत गंजूर किया जा सकता है। यदि उच्चतम बोलीदाता बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि, बोली छूटते ही तत्त्वकाल जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई घरोहर राशि जब्द कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को बेची जाने हेतु प्रस्तावित की जाएगी। क्रय मूल्य की शेष राशि का मुगतान क्रेता द्वारा आधोहस्ताक्षरी को उत्तर सम्पत्ति की विक्री की पुष्टि के पंद्रहवे दिन या पहले अथवा पार्टियों द्वारा लिखित रूप से सहमत आगे बढ़ाई गई अवधि के भीतर किया जाएगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान में चूक की रिथित में कम्पनी क्रेता द्वारा जमा की गई घरोहर राशि तथा/अथवा अन्य किसी राशि को जब्त करने तथा सम्पत्ति की दोबारा नीलामी करने के लिए स्वतंत्र होगी। सम्पत्ति की अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि अथवा अंश पर चूककर्ता क्रेता के सभी दावे जब्त मान्य होंगे। क्रेता द्वारा सभी भुगतान शुमम् हाउशिंग डवलपमेंट फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा किए जाएंगे।

. बिक्री मुख्य की पूरी राशि प्राप्त होने पर, कम्पनी द्वारा क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा क्रेता को सम्पत्ति का कब्जा प्रदान किया जाएगा। . अनुसूची में वर्णित उक्त अचल सम्पत्ति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि किए जाने की तिथि से आग या चोरी या अन्य दुर्घटनाओं से होने वाली हानि या क्षति या अन्य जोखिम के संबंध में एकमात्र रूप से क्रेता के जोखिम पर होगी। क्रेता को किसी भी आधार पर बिक्री रदद करने का अधिकार नहीं होगा। 10. असफल बोलीदाताओं द्वारा धरोहर राशि हेतु जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर लौटा दिया जाएगा।

11. इन सम्पितायों की बिक्री सभी प्रयोजनों हेतु पूर्णतया "जैसी है जहां है आधार" तथा "जो है जैसी है कोई वापसी नहीं आधार" की जाएगी। कम्पनी को उपरोक्त सम्पित्तयों पर किसी भी प्रकार के किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है।

परिता प्रकार के किया कि किया कि प्रकार के अपने किया किया है। 12. ऊपर संवर्गित सम्पत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, रिजिस्ट्रेशन शुल्क, अंतरण शुल्क तथा अन्य कोई शुल्क संबंधी सभी खर्चे क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 13. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी ऑफर्स/ बोलियों को स्वीकार करने हेतु बाब्य नहीं हैं तथा कम्पनी का, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार

करने का अधिकार सुरक्षित है। . स्वयं बोलीदाताओं अथवा उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त बिक्री कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। 15. यदि सभी बकाया राशियां कम्पनी द्वारा वहन की गई सभी लागत प्रभारों तथा खर्चों सहित उपरोक्त नामक कर्जदार द्वारा, अधिनियम की घारा 13(8) के तहत बिक्री हेतु नियत तिथि से पहले सौंप दी जाती हैं अथवा चुकता कर दी जाती हैं, तब सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी तथा प्रत्याशी बोलीदाताओं से प्राप्त की गई सभी बोलियां उनको, कम्प

की किसी जिम्मेदारी/ उसके विरूद्ध किसी दावे के बगैर, वापस कर दी जाएंगी। 16. यह सुवना, ग्राहक को कालम 'सी' एवं 'एफ' में वर्णित उनके संबंधित पते पर उपरोक्त कर्जदारों को प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(६) तथा परिशिष्ट 4क

के तहत नोटिस भी है। 17. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.shubham.co. देखें।

18. अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टता या किसी संहायता के लिए बुजेश दुबे (प्राधिकृत अधिकारी) से मोबाइल नंबर – 7980187010 पर सम्पर्क किया जा सकता है। स्थान : गुरूग्राम तिथि : 08–02–2023 प्राधिकृत अधिकारी शुमम् हाउसिंग डवलपमेंट फाइनैंस कम्पनी

Kubata

Escorts Kubota Limited

Escorts Kubota Limited (Formerly Escorts Limited)

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortsgroup.com Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, 121 003, Haryana CIN - L74899HR1944PLC039088

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

SI.	1_00a_000_0000			Standalon	e Results					Consolidat	ed Results		
No.	Particulars		3 Months ended		9 Monti	ns ended	Year ended		3 Months ended	1	9 Month	ns ended	Year ended
		December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 20
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total revenue from operations	2,263.67	1,883.48	1,971.50	6,162.00	5,327.33	7,196.90	2,291.35	1,890.80	1,998.29	6,214.21	5,396.01	7,282.6
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	191.46	268.82	630.94	752.40	1,021.88	235.62	182.86	261.62	610.02	735.37	992.
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	118.70	268.82	558.18	752.40	1,021.88	235.62	129.81	261.62	556.97	735.37	992.
4	Net Profit for the Period	186.40	87.66	201.52	421.51	563.44	765.61	180.80	98.80	193.71	420.19	545.63	735.
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.45	97.57	196.49	422.47	546.13	737.
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.47	97.60	196.97	422.57	546.05	738.
7	Equity Share Capital	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.
8	Other Equity				1,400,0000,000		7,746.24	11.00.00			0.000		7,467.
9	Earnings Per Share of ₹ 10 each:	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised		not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	
	(1) Basic (₹)	14.37	6.76	15.33	32.52	42.75	58.91	16.70	9.14	19.74	38.85	55.48	74
	(2) Diluted (₹)	14.35	6.75	15.30	32.48	42.67	58.71	16.68	9.12	19.67	38.79	55.35	73

Notes:

- The above standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective
- meetings held on February 08, 2023. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

For Escorts Kubota Limited Nikhil Nanda (Chairman and Managing Director)

Place: Faridabad

Date: 08/02/2023



नर्ड दिल्ली। बहस्पतिवार ● 9 फरवरी ● 2023

सहारा= | www.rashtriyasahara.com |

संक्षिप्त (खबरें

आज गुरुग्राम आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुम्राम । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को गांव बोहड़ाकलां स्थित ओम् शांति रिट्रीट सेंटर में शिरकृत करेंगी। वे यहां वीमन एज फाउंडेशन करगा। व वहा वामन एज फाउडरान ऑफ ए वैल्यूएबल सोसायटी राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति का हरियाणा में आगमन पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वागत करेंगे। गुरुग्राम में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यक्रम से एक दिन पहले बुधवार को डीसी निशांत कुमार यादव तथा सीपी कला रामचंद्रन ने ओम शांति रिट्टीट सेंटर का दौरा किया। डीसी ने गुरुग्राम से बोहड़ाकलां तक राष्ट्रीय राजमार व संपर्क सड़क की सफाई व मरम्मत के व संपंक संकृत को सकाई य मरम्मय क कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल से जुड़े कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा

सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत

निर्देश दिए।

होडल । बाईक पर सवार होकर खेत से अपने घर जा रहे एक युवक की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। घटना लघु सचिवालय के गेट के सामने की बताई गई है। पुलिस ने मृतक के शव का र्टम कराकर परिजनों को सौंप पास्टमाटम कराकर पारजना की साप दिया है। नवल किशोर निवासी अन्धुआ पट्टी होडल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती सायं वह अपने भतीजे राहुल कुमार के साथ बाइंक पर सवार होकर खेत से अपने घर जा रहे थे। जब वह लघु सचिवालय के गेट के निकट पहुंचे तो तेज रफतार ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से सीधी टक्कर मार दी। जिसमें उसके भतीजे राहुल की मौत हो गई।

सरपंचों ने ई-टेंडरिंग मामले में डिप्टी सीएम के आवास के समीप डाला डेरा

सिरसा (एसएनबी)। ई-टेंडरिंग के विरोध में धरनारत सरपंचों ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के समीप पड़ाव डाला। सरपंचों के उप मुख्यमंत्री हाउस घेराव के ऐलान पर काफी संख्या में हाउस घराव क एलान पर काफा सख्या म पुलिस बल तैनात रहा। जिले भर से सरपंच पुलब बराताला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकतित हुए और नारेबाजी करते हुए बाबा भूमणशाह चौक पर पहुँचे और उसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के नजदीक पडाव डालकर बैठ गए। सरपंच एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जसकरण कंग ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आस्वान पर पूरे प्रदेश में विधायकों के निवास का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में काफी संख्या में सरपंच एकत्रित होकर उप मुख्यमंत्री निवास के समीप पहुंचे हैं।



वंडीमकः मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तिशिल्प मेले में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन क इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का ब्रीशर लॉन्च करते हुए। फोटो*ः एसत्स*

सीएम ने मेले में लांच किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स-2023 ब्रोशर

चंडीगढ़ (एसएनबी)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स २०२३ का ब्रोशर लॉन्च किया। संयुक्तराष्ट्र परिषद ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेटस 2023 घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विभिन्न अवसरों पर मोटे अनाज प्रयोग करने का आह्वान कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी मिलेट्स को वा देने के लिए अथक प्रयास कर रही सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले में भी बरे से कई स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन तैयार किए गए हैं।

व्यजन तथार किए गए है। बुधवार का दिन सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के लिए और भी खास रहा, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मंत्रिमंडल व सभी विधायकों के साथ राजहंस होटल में दोपहर का भोजन किया। इस दौरान मेले में सांस्कृतिक महाकुंभ भी देखने को मिला, जब विदेशी कलाकारों ने अपनी कला प्तं संस्कृति का प्रदर्शन किया। अलग-अलग भाव, पहनावे, म्यूजिक तथा बोल सुनाकर विदेशी कलाकारों ने दुनिया भर की सांस्कृतिक विविधताओं से माहौल को गुंजायमान कर दिया। सभी ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में क्लासिक से लेकर फोक तक अपनी प्राचीन परंपराओं को सजीव कर दिया। स्टेज पर जी-20 के श्रीम-एक कर दिया। स्टेज पर जा-20 के बाम-एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत

चौटाला, हरियाणा विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, स्कूल गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचद शमा, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, कृषि पूर्व किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा, श्रम राज्यमंत्री अनूप धानक, हरियाणा पर्यटन निगम चेयरमैन अरविंद यादव, विधायक नैना चौटाला, सीमा त्रिखा, नीरज शर्मा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, प्रवीण डागर, सीताराम याँदव, सोमवीर सांगवान, घनश्याम सर्राफ, निर्मल सामवार सागवान, घनश्याम सराफ, निमल चौधरी, जववीर बाल्मीकि, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, मुख्य सचिव संजीव कौशल तथा मुख्यमंत्री के एपीएस तथा सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के डीजी डा. अमित कुमार अग्रयाल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

तथ्यहीन है राहल गांधी का संसद में दिया भाषण : चुग

चंडीगढ़ (एसएनबी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी द्वारा सदन में अनर्गल और झूठे प्रलाप पर निशाना साधते अनगल आर झूठ प्रलाप पर निशाना साधत हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ कहा है, वह झुठ का पुलिंच है। राहुल गांधी हमेशा झुठ की राजनीति करते रहे हैं। राहुल गांधी ने कई बार उच्चतर संवैधानिक संस्थाओं के आदेश के बारे में झूठी वयानबाजी की. जिसके बाद सार्वजानिक रूप वधानवाजा का, जिल्ला बाद स्वाधानक रूप से माफी मांगिनी पड़ती है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में बेल पर चल रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि उनकी झूठ की राजनीति कभी भी सफल नहीं होने वाली,

राजनाति कभा भा सफल नहा हान वाला, क्योंकि देश की जनता उनके हथकंडों को भलीभीति जानती व समझती है। तरुण चुग ने कांग्रेस सरकार के घोटालों को उजागर करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 1.86 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ, लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है जनता जानती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का भ्रष्टाचार करने का इतिहास रहा है।

आपदा पीड़ितों की मदद करना आमजन का कर्तव्य : सीएम

चंडीगढ़ (एसएनबी)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को फरीदाबाद के सेक्टर-15 से उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे वाहन को हरी प्रभावत लागा का भदद के लिए राहत समिश्र से भर वाहन का हरे। इंडी दिखाकर रावाना किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा उपस्थित रहे। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा कभी बताकर नहीं आती, इससे निपटने के लिए आमजन को सदैव तैयार रहना चाहिए। हरियाणा आपदा की स्थिति में हरसमय मदद के लिए तैयार रहता है। प्रदेश सरकार द्वारा जब भी किसी देश या प्रदेश पर आपदा आई, उसका आपसी सहयोग देकर एकजुटता दिखाते हुए सामना किया। आपदा का समय संकट का समय होता है, ऐसे में सूझवृद्ध के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। हमें संकट काल की परिस्थितयां देखते हुए ज्यादा से ज्यादा ज़रूरत का समान दान स्वरूप देना चाहिए। मानवता के नाते जरूरतमंद की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य बनता है। इस मौके पर बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के

विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

बेहतर विकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार करिबद्ध : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुषवार को फरीदाबाद में करीब 12.30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन कर पहला फावड़ा चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ ही सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं। इस अस्पताल के निर्माण से जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सविधाएं सहज अस्पताल का नामाण से जहा लागा का बहतर स्वास्थ्य शुप्रवाया सहज उपलब्ध होंगी, वहीं बावा बंदा से बहुद कहा की शहादत, वीरता और त्याग की भावना सभी को प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की, जबकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।

धाकड़ फैसले लेवै जो हरियाणा मैं, सारे गुण अवलेबल अनिल विज सयाणे मै गृहमंत्री अमित शाह करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान करेंगे। हरियाणा पुलिस को पहली बार...जब से हरियाणा बना, राष्ट्रपति फ्लैग मिला है, इस फ्लैग को प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करनाल आ रहे हैं। वहीं एक अन्य सवालु के

चंडीगढ़ (एसएनबी)। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार्यशैली से प्रदेश की जनता प्रभावित है। इसी से अभिभृत एक युवक ने गृहमंत्री विज को समर्पित हरियाणवी गीत बनाया और एक युवन न गुहमना विज्ञ को समामत हारमणवा गात कमाया आर बुध्यवर को उन्हें मुत्ताया गीत सुनस्त दिव ने युवन की तारिफ की और उसकी पीठ थपथपाई। अंवाला जिले के कोकपुर गाँव निवासी राज् वडली ने गीत की पीक्तमों गुणमुत्ताई. थांकड़ फैसले लेवे जी कारी हरियाणा में, सार्ट गुज अवलेकल हैं डोसलि वड स्ताणों में, पाउ में बताया कि इस गीत में संगीत उसने दिया है, जुबकि गीत उसके दिव्यांग दोस्त संब् ने लिखा है। कैथल में उनका स्टूडियो है, जहां पर उन्होंने इस गीत में संगीत जोड़कर इसे अंतिम रूप दिया। लगभग चार मिनट के गीत में गृहमंत्री विज कार्यशैली को बताने का प्रयास किया गया है। विज पर आगे भी वह और

क आस रहते हैं। अंबाला छावनी पहले विकास के मामले में अहतू एक आस रहते हैं। अंबाला छावनी पहले विकास के मामले में अहतू था, मगर विज की बदौलत यहां ढेरों विकास कार्य हुए हैं। वहीं विज ने इन युवाओं की प्रशंसा पाकर उनकी पीठ थपथ्पाई। इस मौके पर

कावराणा का बतान का प्रवास किया गया है। विज पर आगा भी वह आर गाने बना रहे हैं, किन्हें जल्द उतिम रूस दिया जाएगा। राज् बड़ाली ने बताया कि गृहमंत्री विज की कार्यशैली प्रदेशभर में प्रचलित है, चाहे विकास का मामला हो या न्याय का। सभी को उनसे

गीत बनाया गया था. जोकि काफी चर्चित भी है।

हा पुराणा बात्र अस्ति। सांबर रिजन आ उपचाहा है का नाज र भाजपा सदर संडल प्रधान राजीव गुप्ता डिम्पल, महेशनगर संडल प्रधान अजय पराशर, ग्रामीण प्रधान किरण पाल चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब हैं कि गृहमंत्री विज की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर पूर्व में रॉकी मित्तल द्वारा <u> कार्यालय जिला</u> पंचायत गौतमबुद्धनगर

गात बनावा गया या, जाक काफा चायत मा हा अमित शाह हरियाणा पुलिस को प्रदान करेंगे राष्ट्रपति पलैग : गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 14 फरवरी को केंद्रीय

नवा जीन पाह बेज निर्माश के रहिल गाँधी के लोकसभा में बहर के दौरान अड़ानी को लेकर मोदी सरकार को घेरने के जवाब में बयानी प्रश्न करते हुए कहा कि राहुल गांधी झुट बोलते हैं, जहां तक मैं जानता हूं कि राहुल गांधी का अड़ानी परिवार से बड़ा ही अच्छा मेलमिलाप है। राष्ट्रा पांच का अंडाना स्तिया से बड़ा हा अच्छा नतानताच है। अगर अडानी इतने ही गलत है आपकी सरकारों ने क्यों किए करार : विज ने कहा कि राजस्थान में इनकी (कांग्रेस) सरकार है, इन्होंने अडानी से करार किया हुआ है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इन्होंने अडानी से करार किया हुआ है। विज ने कांग्रेस पर

राज्यात, है रहाना अवारा पात्रात है। हो पात्र ने वाहर में पेत्रात्र में पेत्रात्र में पेत्रात्र में पेत्रात्र मे प्रश्न उठाते हुए कहा कि अगर अडानी इतना ही गलत है तो आपकी (कांग्रेस) सरकारों ने करार क्यों कर रखे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, इनका कोई पारिवारिक झगड़ा है, जिसे ये राष्ट्रीय झगड़ा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने एक बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्वनाथ योगी को धार्मिक नेता नहीं एक मामूली सा उग कहने पर विज ने तंज कसा कि ये पार्लियामेंट्री भाषा के सिद्धांत के विषरीत है, परंतु जब आदमी खाली हो जाता है तब वह इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है।

पत्रांक : 456/जि.प.गै./2023

नीलामी सचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023-24 के लिए जनपर गैतमबुद्धनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/लाईसेंस जिल पंचायत. गौतमबद्धनगर द्वारा नीलामी के माध्यम से दिनांक 28.02.2023 को समर 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक की जानी है। नीलामी में पंजीकृत सहकारी समिति जोकि खादी ग्रामोंद्योग अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो एवं पैतक रू

से इस कार्य में लगे हुये लोग ही प्रतिभाग कर सकते हैं। नीलामी में किसी भी बकायेदार द्वारा लगायी गयी बोली को मान्य नहीं माना जायेगा। यदि उक्त दिनांक तक आवेदन नहीं किया जाता है तो या किसी बकायेदार/समिति द्वारा बकाया धन जमा नहीं किया जाता है, तो दिनांक 28.02.2023 को मृत पशु शव निस्तारण के कार्यों में पैतृक रूप से लोगों के मध्य नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। यदि दिनांक 28.02.2023 को नीलामी की कार्यवाही नहीं हो पाती है, तो प्रत्येक सोमवार को कार्य दिवस में पैतृक रूप से इस कार्य में लगे लोगों के मध्य नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर

ग्रामीण उत्पादों व व्यापार को बढावा देने के लिए डेल्हीवेरी और ई-समुदाय एक साथ आगे आए

गुरुग्राम (एसएनबी) । ग्रामीण उत्पादों व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डेल्हीवेरी और ई-समुदाय एक साथ आगे आए हैं। इनका लक्ष्य हैं देश के विभिन्न कोनों में जाकर छोटे-छोटे स्टार्ट-अप्स को एक प्लेटफार्म देना जिससे छोटे उद्योग व्यापार बड़े मार्केट में आ सकें। दोनों कंपनियों ने एक साझा बयान जारी कर

कंपनी की तरफ से बताया गया है कि हमारे देश में बड़ी अनेपा अपरिस्त से जायां भी है कि हमारे देश में अहे संभावानाएं हैं। छोटे सुदूर हालाओं में उद्योगों को बहावा देने के लिए जरूरी है कि उन्हें खुले बाजार में लाया जाए। देश और दुनिया की नृजरें इन उत्पादों पर पड़ें। इससे जहां इन उद्योंगों का भला होगा वहीं आम ग्राहकों को भी बेहतर चीजें मिल सकेंगी। ज्यादो लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की

. तरक्की सुनिश्चित हो सकेगी। बताया गया है कि बेंगलुरू स्थित ई-समुदाय ने त्योहार-फॉरएवर नामक एक महत्वपर्ण प्लेटफार्म लांच किया गया है जो ग्रामीण इलाकों महत्त्वपूर्ण स्टाटफाम लाच किया गया है आग्रामाण इलाका के कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को पहुंच का नया आयाम प्रदान करता है। ई-समुदाय स्थानीय उत्पादों को देश भर में उपलब्ध कराने के लिए डेल्हीवेरी के 18,400 से अधिक पिन कोड़ के भारतीय नेटवर्क का लाभ स आवक पन कार का स्तापन नट्यक का शान उठाएगा। इसल में इस प्लेटफार्म ने अपना पहला अंतर्देशीय ऑर्डर पूरा किया है। इसने टेनियस बी कलेक्टिव कंपनी द्वरा बनाए गए कच्चे और अपाश्चीकृत हिमालयन शहद की डिलीवरी को अंजाम दिया गया। ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी की पहुंच को अधिक सक्षम बनाता है।

अधिकारी टी कोशी ने कहा है कि डिजिटल वाणिज्य को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ओएनडीसी सबसे छोटे विक्रेताओं को नेटवर्क पर लाने और उन्हें एक ऐसा मैदान देने का लक्ष्य रखता है

नद्यक पर लान आ उन्हें एक एसा मदान दन का लक्ष्य रखता ह जहां वे बराबरी की प्रतिरम्पां कर सकें। डेल्होंबरी के चीफ आपरेटिंग अजित पई ने इस नई साक्षेदारी पर बताया कि हम डिजिटलू तकनीकों का उपयोग करके जमीनी स्तर पर मूल्य प्रदान करने और सम्मदाय बढ़ाने के लिए गए परिदृश्य खोलने के लिए ई-समुदाय जैसे ओएनडीसी नेटक्क एनैबर्ल्स के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं। ई समुदाय के डिजिटल कॉमर्स बिजनेस के मुख्य अधिकारी संजय केसवानी ने बताया कि यह प्लेटफार्म दूरदराज समुदायों के बेहतरीन उत्पादों

S Kubota

Escorts Kubota Limited

Escorts Kubota Limited (Formerly Escorts Limited)

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortsgroup.com Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, 121 003, Haryana CIN - L74899HR1944PLC039088

Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2022

П		₹ in Crores													
s	SI. Particulars	Standalone Results							Consolidated Results						
N	Paruculars	3 Months ended			9 Months ended Yo		Year ended	3 Months ended			9 Months ended		Year ended		
		December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022		
Ш		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
3	1 Total revenue from operations	2,263.67	1,883.48	1,971.50	6,162.00	5,327.33	7,196.90	2,291.35	1,890.80	1,998.29	6,214.21	5,396.01	7,282.65		
1	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	191.46	268.82	630.94	752.40	1,021.88	235.62	182.86	261.62	610.02	735.37	992.83		
1	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	118.70	268.82	558.18	752.40	1,021.88	235.62	129.81	261.62	556.97	735.37	992.83		
4	4 Net Profit for the Period	186.40	87.66	201.52	421.51	563.44	765.61	180.80	98.80	193.71	420.19	545.63	735.61		
	5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.45	97.57	196.49	422.47	546.13	737.69		
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.47	97.60	196.97	422.57	546.05	738.55		
1 3	7 Equity Share Capital	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94		
1	8 Other Equity						7,746.24						7,467.96		
9	9 Earnings Per Share of ₹ 10 each:	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised		not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised			
	(1) Basic (₹)	14.37	6.76	15.33	32.52	42.75	58.91	16.70	9.14	19.74	38.85	55.48	74.06		
	(2) Diluted (₹)	14.35	6.75	15.30	32.48	42.67	58.71	16.68	9.12	19.67	38.79	55.35	73.73		

olidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 08, 2023.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

Place: Faridabac Date: 08/02/2023

--

For Escorts Kubota Limited Nikhil Nanda (Chairman and Managing Director)







High freight prices lift Maersk to record profit in 2022

Global shipping giant Maersk reported its biggest ever full-year profit in 2022, amid soaring freight prices and easing bottlenecks following the covid-19 pandemic. Maersk posted a net profit of \$29.2 billion, the highest earnings ever reported by a Danish company. Sales rose by 32% to \$81.5 billion.

Apple expands testing of 'buy now, pay later' service



Apple Inc. has expanded an internal test of its upcoming "buy now, pay later" service to the company's thousands of retail employees, a sign the long-awaited feature is finally nearing a public release. The tech giant contacted retail staffers this week to offer them a test version of the service, according to Apple workers who asked not to be identified. The offering, called Apple Pay Later, lets shoppers split the payment for purchases into instalments.

TotalEnergies posts record net profit of \$20.5 billion in 2022

France's TotalEnergies said Wednesday that high oil and gas prices bolstered its net profit to a record \$20.5 billion in 2022 and announced higher dividend payments for shareholders. The 28% gain would have been much higher save for the nearly \$15 billion in charges linked to its leaving the Russian market, with adjusted profits excluding such exceptional items rising to \$36.2 billion. Nevertheless, the surge in oil and natural gas prices following Russia's invasion of Ukraine and Western sanctions was a major boost for TotalEnergies, as it was for its rivals.

China's oil mkt makes comeback on covid zero exit and exports

China's oil market is making a comeback after a torrid year, driven by rising consumption at home and abroad that could help lift global prices and deliver a big payoff for its embattled refining sector. The stars are aligning after the government's abrupt end to growth-sapping covid zero restrictions was followed by a burst of travel during the Lunar New Year break. At the same time, the war in Ukraine is lifting overseas demand for oil products, with Chinese firms poised to benefit from Beijing's generosity with export quotas. BLOOMBERG

Death toll tops 11,700 in Turkey-Syria quake

Officials, medics said 9,057 people had died in Turkey and 2,662 in Syria

feedback@livemint.com ANTAKYA, TURKEY

earchers were still pulling survivors on Wednesday from the rubble of the earthquake that killed over 11,700 people in Turkey and Syria, even as the window for rescues narrowed.

For two days and nights since the 7.8 $magnitude\, quake, thousands\, of\, searchers$ have worked in freezing temperatures to find those still alive under flattened buildings on either side of the border.

Turkish Red Crescent chief Kerem Kinik had warned that the first 72 hours were critical in search and rescue efforts but pointed to complications of "severe weather conditions".

Emergency workers on Wednesday saved some children found under a collapsed building in the hard-hit Turkish province of Hatay, where whole stretches of towns have been levelled.

"All of a sudden we heard voices and thanks to the excavator... immediately we heard the voices of three people at the same time," said rescuer Alperen Cetink-

aya.
"We are expecting more of them... the chances of getting people out of here alive are very high," he added.

Officials and medics said 9,057 people had died in Turkey and 2,662 in Syria from Monday's 7.8-magnitude tremor, bringing the total to 11,719 — but that could yet double if the worst fears of experts are

The World Health Organization (WHO) chief Tedros Adhanom Ghebreyesus has warned that time is running out for the thousands injured and those still feared

Due to the scale of the damage and the lack of help coming to certain areas, survivors said they felt alone in responding to

"Even the buildings that haven't collapsed, were severely damaged. There are



Thousands of searchers have worked in freezing temperatures to find those still alive. AP

Ghebreyesus has

warned that time

is running out for

the thousands

injured

now more people under the rubble than those above it," a resident named Hassan, who did not provide his full name, said in the rebel-held town of Jindayris.

"There are around 400-500 people trapped under each collapsed building, with only 10 people trying to pull them out. And there is no machinery," he added.

The White Helmets leading efforts to rescue people buried under rubble in rebelheld areas of Syria have appealed for international help in their "race against time". They have been toiling since the quake to pull survivors out from under the debris of dozens of flattened buildings in northwestern

areas of war-torn Syria that remain outside the government's control. "International rescue teams must come

into our region," said Mohammed Shibli, a spokesperson for the group known formally as the Syria Civil Defence.

"People are dying every second; we are

in a race against time," he told AFP from neighbouring Turkey.

The issue of aid to Syria was a delicate one, and the sanctioned government in Damascus made an official plea to the EU for help, the bloc's commissioner for crisis management Janez Lenarcic said.

A decade of civil war and Syrian-Russian aerial bombardment had The WHO chief already destroyed hospitals, collapsed the economy and **Tedros Adhanom** prompted electricity, fuel

> and water shortages. The European Commission is "encouraging" EU member countries to respond to Syria's request for medical supplies and food, while monitoring to ensure

that any aid "is not diverted" by President Bashar al-Assad's government, Lenarcic

In parts of quake-hit Turkey, shops were closed, there was no heat because gas lines have been cut to avoid explosions. and finding petrol was tough.

Zoom Video to cut 1,300 jobs, 15% of global workforce

feedback@livemint.com

7 oom Video Communications Inc. is eliminating 15% of its workers as the service that became ubiquitous during the pandemic

The company will cut about 1,300 jobs as part of a restructuring, chief executive officer Eric Yuan said on Tuesday in a blog post. Yuan called himself "accountable" for the com-

adapts to slower growth.

"Our trajectory was forever changed during the pandemic," Yuan said, adding that Zoom headcount tripled in two years. "We didn't take as much time as we should have to thoroughly analyse our teams or assess if we were growing sustainably."

The reductions are a bigger share of the workforce than cuts announced at enterprise software companies including Salesforce Inc., Microsoft Corp. and Workday Inc. The

shares gained 9.9% to close at \$84.66 in New York, the biggest single-day jump in three months. Despite Tuesday's rise, the stock has plummeted 85% from an all-time high

in October 2020 and is now at pre-pandemic levels.

While people and businesses continue to rely on Zoom in post-pandemic life, the "uncertainty of the global economy" is affecting customers, Yuan said. After gaining millions of users at the height of the pandemic, Zoom is now trying to reverse slowing growth by expanding its tools for business.

Still, it has reported single-



The cuts are likely a bid to improve margins.

digit revenue increases for the last two quarters, and analysts project that sales have continued to decelerate in the current quarter. The cuts are likely a bid to preserve or improve margins in the face of slowing growth, wrote Bloom berg Intelligence analyst John

Competition from Microsoft's Teams collaboration service has also become more of a concern for Zoom in recent

quarters, accord-

ing to industry

analysts. In an

interview with

Bloomberg last

month, President

Greg Tomb

acknowledged

the competition,

but said companies using Zoom

Competition from Microsoft's Teams collaboration service has also become more of a concern for Zoom in recent quarters

rarely quit the platform. Tomb added the company's biggest opportunity is getting existing customers using the rest of its portfolio, which includes tools such as the Zoom phone ser-Yuan, the founder of the San

Jose, California-based company, said his base salary. which was \$301,731 last year, will be cut 98% and he will give up a corporate bonus for the current fiscal year.



Escorts Kubota Limited

Escorts Kubota Limited (Formerly Escorts Limited) Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060, E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortsgroup.com Registered Office: 15/5. Mathura Road, Faridabad, 121 003, Harvana

CIN - L74899HR1944PLC039088 Extract of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

SI.	Particulars	Standalone Results							₹ In Crores Consolidated Results						
No.		3 Months ended			9 Mont	hs ended	Year ended		3 Months ended		9 Months ended		Year ended		
		December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total revenue from operations	2,263.67	1,883.48	1,971.50	6,162.00	5,327.33	7,196.90	2,291.35	1,890.80	1,998.29	6,214.21	5,396.01	7,282.65		
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	191.46	268.82	630.94	752.40	1,021.88	235.62	182.86	261.62	610.02	735.37	992.83		
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	241.40	118.70	268.82	558.18	752.40	1,021.88	235.62	129.81	261.62	556.97	735.37	992.83		
4	Net Profit for the Period	186.40	87.66	201.52	421.51	563.44	765.61	180.80	98.80	193.71	420.19	545.63	735.61		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.45	97.57	196.49	422.47	546.13	737.69		
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	187.32	86.78	204.35	423.55	563.97	767.74	182.47	97.60	196.97	422.57	546.05	738.55		
7	Equity Share Capital	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94	131.94	131.94	122.58	131.94	122.58	131.94		
8	Other Equity						7,746.24						7,467.96		
9	Earnings Per Share of ₹ 10 each:	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised		not annualised	not annualised	not annualised	not annualised	not annualised			
	(1) Basic (₹)	14.37	6.76	15.33	32.52	42.75	58.91	16.70	9.14	19.74	38.85	55.48	74.06		
	(2) Diluted (₹)	14.35	6.75	15.30	32.48	42.67	58.71	16.68	9.12	19.67	38.79	55.35	73.73		

Notes:

- The above standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortsgroup.com.

Place: Faridabad Date: 08/02/2023

meetings held on February 08, 2023.

For Escorts Kubota Limited Nikhil Nanda (Chairman and Managing Director)



Introducing News in Numbers Exclusively on the Mint App

